

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 24—दिसम्बर 30, 2016 (पौष 3, 1938)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 24—DECEMBER 30, 2016 (PAUSA 3, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

गृह मंत्रालय
(महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

सं. डी.एक. 33/2015—कार्मिक.डी.ए.—आठ—एन.डी.एम.ए.(NDMA) मुख्यालये के पत्र संख्या 2/2/2010—Admn-JA(C&IT) दिनांक 18.08.2016 और MHA CF-3363622/2016 दिनांक 01.09.2016 के तहत के श्री अनुराग राणा, कमांडेन्ट (इरला-4509), 04th Signal Bn केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल का एन.डी.एम.ए. (NDMA) Joint Advisor (Communication & Information Technology) में 03 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर चयन हो जाने के फलस्वरूप अधिकारियों की सेवाएं दिनांक 17.10.2016 (AN) से एन.डी.एम.ए. (NDMA) मुख्यालये के निपटान (DISPOSAL) पर रहेंगी।

ए. वी. चौहान
पुलिस महानिरीक्षक

महानिदेशालय
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-03, दिनांक 13 अक्टूबर 2016

सं. ई-38013/01/अ.सू./रा.प.अ./2016/कार्मिक.1/649—राष्ट्रपति, निम्नलिखित निरीक्षको (अनु/स्टेनो) को रुपये 15,600—39,100 (+) ग्रेड वेतन रुपये 5,400/— के वेतनमान में कैओसुब में सहायक कमाण्डेन्ट (जेएओ) के पद पर पदोन्नति होने पर

उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहायक कमाण्डेंट/जेएओ के रूप में पद ग्रहण की तिथि
1	शीश राम	ए.एस.जी. नई दिल्ली	24.08.2016 (पूर्वाह्न)
2	एस. अन्जनया राजु	निसा हैदराबाद	08.09.2016 (पूर्वाह्न)
3	आर. मुरलीधरण	सी.एच.पी.टी. चैन्नई	01.09.2016 (पूर्वाह्न)
4	के. नागार्जन	डी.ए.ई. कलपाक्कम	16.09.2016 (पूर्वाह्न)
5	महेन्द्र सिंह यादव	आई.ओ.सी. पानीपत	12.09.2016 (पूर्वाह्न)
6	सी. वर्धाराजन	समूह मुख्यालय कोचीन	13.09.2016 (पूर्वाह्न)
7	नोहर सिंह आरमो	बी.एस.पी. भिलाई	06.09.2016 (पूर्वाह्न)
8	के. जया कुमारन नायर	समूह मुख्यालय इलाहाबाद	07.10.2016 (पूर्वाह्न)
9	संजय कुमार गुप्ता	उ०.खण्ड मुख्यालय नई दिल्ली	02.09.2016 (पूर्वाह्न)
10	शिव चरण सिंह	ए.एस.जी. नई दिल्ली	16.09.2016 (पूर्वाह्न)
11	हरीश चन्द्र मासीवाल	डी.ए.एम.ई.एल. दिल्ली	16.09.2016 (पूर्वाह्न)
12	समीर कुमार डे	जी.आर.एस.ई.एल. कोलकाता	02.09.2016 (पूर्वाह्न)
13	उमेश रजक	पूर्वी क्षेत्र मुख्यालय पटना	08.09.2016 (पूर्वाह्न)
14	राणा सत्यवान	ए.एस.जी. नई दिल्ली	14.09.2016 (पूर्वाह्न)
15	आर. सरवनराज	एस.सी.सी.एल. सिंगरेनी	14.09.2016 (पूर्वाह्न)
16	अशोक कुमार मलिक	आईओसीएल पारादीप	30.09.2016 (पूर्वाह्न)

ह. /—अपठनीय
महानिदेशक / केओसुब

दिनांक 17 अक्टूबर 2016

सं. ई-38013/01/अ.सू./रा.प.अ./2016/कार्मिक.1/665—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारी को वेतन मान रुपये 15,600—39,100/— (पीबी-3) (+) ग्रेड पे रुपये 6,600/— (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में केओसुब में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पद ग्रहण की तिथि
1	पतरस लकडा	व्यवस्था शाखा बल मुख्यालय नई दिल्ली	01.10.2016 (पूर्वाह्न)

ह. /—अपठनीय
महानिदेशक / केओसुब

सं. ई-38013/01/अ.सू./रा.प.अ./2016/कार्मिक.1/667—राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक को पीबी-2 रुपये 9,300—34,800/— (+) ग्रेड वेतन रुपये 4,600/— (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में केओसुब में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत करते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में पद ग्रहण की तिथि
1	सतबीर सिंह	कार्मिक शाखा (कार्मिक-2 अनुभाग), बल मुख्यालय नई दिल्ली	03.10.2016 (पूर्वाह्न)

ह. /—अपठनीय
महानिदेशक / केओसुब

दिनांक 28 नवम्बर 2016

सं. ई-38013/01/अ.सू./रा.प.अ./2016/कार्मिक-1/740—राष्ट्रपति, निम्नलिखित निरीक्षको (अनु/स्टेनो) को वेतन मैट्रिक लेवल-10 रुपये 56,100-1,77,500 में केओसुब में सहायक कमाण्डेंट (जेएओ) के पद पर नियमित पदोन्नति होने पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से उन्हें इस पद पर पदोन्नत करते हैं :-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (सर्वश्री)	कार्यालय/इकाई जहां पद ग्रहण किया	नियमित आधार पर सहायक कमाण्डेंट/जेएओ के रूप में पद ग्रहण की तिथि
1.	राजेश कुमार	समूह मुख्यालय पटना	15.11.2016 (पूर्वाहन)
2.	मंगल सिंह भण्डारी	बीआईओएम किरन्दूल	17.10.2016 (पूर्वाहन)

ह./—अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

दिनांक 6 दिसम्बर 2016

सं. ई-16015/एनडीएमए/08/कार्मिक-2/2016/2197—प्रतिनियुक्ति विभाग से मूल विभाग में प्रत्यावर्तन होने पर केओसुब के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से केओसुब की नफरी में लिया गया है :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमति	पद	प्रतिनियुक्ति विभाग का नाम	केओसुब की नफरी में लिए जाने की तारीख	केओसुब में पदभार ग्रहण करने की तारीख व इकाई का नाम
1.	विनय कजला	वरिष्ठ कमाण्डेंट	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नई दिल्ली	11/11/16 पूर्वाहन	05/12/16 (पूर्वाहन) केओसुबल इकाई बीआईओएम किरंदुल.

ह./—अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-16015/नीति आयोग/07/कार्मिक-2/2016/2198—प्रतिनियुक्ति विभाग से मूल विभाग में प्रत्यावर्तन होने पर केओसुब के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से केओसुब की नफरी में लिया गया है :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमति	पद	प्रतिनियुक्ति विभाग का नाम	केओसुब की नफरी में लिए जाने की तारीख	केओसुब में पदभार ग्रहण करने की तारीख व इकाई का नाम
1.	तपस्या ओभराई नायर	कमाण्डेंट	नीति आयोग, नई दिल्ली	17/10/16 पूर्वाहन	15/11/16 (पूर्वाहन) केओसुबल इकाई बीडीएल कंचनबाग

ह./—अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

सं. ई-16015/रा.फे.ट.सं./38/कार्मिक-2/2016/2199—प्रतिनियुक्ति विभाग से मूल विभाग में प्रत्यावर्तन होने पर केओसुब के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दी गई तारीख से केओसुब की नफरी में लिया गया है :-

क्रम सं०	अधिकारी का नाम सर्वश्री/श्रीमति	पद	प्रतिनियुक्ति विभाग का नाम	केओसुब की नफरी में लिए जाने की तारीख	केओसुब में पदभार ग्रहण करने की तारीख व इकाई का नाम
1.	राजीव पंत	उप महानिरीक्षक	राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान, कन्नूर (केरल)	21/11/16 (पूर्वाहन)	05/12/16 (पूर्वाहन) केओसुबल पछिम क्षेत्र-II मुख्यालय, भिलाई

ह./—अपठनीय
महानिदेशक/केओसुब

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
महालेखाकार (लेखा व हक) का कार्यालय, गुजरात
अहमदाबाद—380009, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

सं. डब्ल्यू.एम.1/47(3)/भाग.1/ओ.डब्ल्यू.सं. 452—महालेखाकार (लेखा व हक), गुजरात द्वारा निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी-I (DAO-I) को उनके सामने वर्णित तिथि से सी.सी.एस नियम- 2016 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन मेट्रिक्स लेवल 10 में वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी (Sr DAO) ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के पद पर सहर्ष पदोन्नति दी गयी है।

वरिष्ठ प्रभागीय लेखा अधिकारी (Sr DAO) के पद पर पदोन्नति दी गयी:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. श्री एम. एस. पटेल | 01.05.2016 |
| 2. श्री एस. एन. मीना | 01.06.2016 |

महालेखाकार (लेखा व हक), गुजरात द्वारा निम्नलिखित प्रभागीय लेखा अधिकारी-II (DAO-II) को उनके सामने वर्णित तिथि से सी.सी.एस नियम- 2016 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान के वेतन मेट्रिक्स लेवल 08 में प्रभागीय लेखा अधिकारी-I (DAO-I) ग्रुप 'बी' (राजपत्रित) के पद पर सहर्ष पदोन्नति दी गयी है।

प्रभागीय लेखा अधिकारी (DAO-I) के पद पर पदोन्नति दी गयी:

- | | |
|-------------------------|------------|
| 1. श्री विनयशंकर | 01.05.2016 |
| 2. श्री हंसराज कंसोटिया | 01.06.2016 |

ह./—अपठनीय
उप-महालेखाकार (लेखा व हक)

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

स्थापना आदेश सं. 49 [ज्ञापन सं. प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-IX/2364]—ज्ञापन सं. प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/17-2(लेपअ)/भाग-IX/2042 दिनांक 31.10.2016 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 761 दिनांक 31.10.2016 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से पूर्व संशोधित वेतन बैंड-2 (रु. 9,300—34,800/—) एवं सादृश्य ग्रेड वेतन रु. 5,400/— पर लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	नविन चन्द्र प्रधान	01.11.2016 पूर्वाह्न

स्निग्धा महान्ति
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2016

सं. ए-19011/685/2016—स्था.ए.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री फिलिप हपदगडा, को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 21.10.2016 (पूर्वाह्न) से वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी के पद पर नियुक्ति की जाती है।

संजय कुमार सिंह
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

सं. ए-19012/332/2015—स्था.ए.—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री ए. मिश्रा, प्रशासनिक अधिकारी को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 22.08.2016 (अपराह्न) से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति की जाती है।

संजय कुमार सिंह
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग
(भारी पानी बोर्ड)

मुम्बई-400094, दिनांक 8 दिसम्बर 2016

सं. भापाबो/भर्ती/1(16)-कोटा/2016/7165—भारी पानी बोर्ड के मुख्य कार्यकारी सहायक लेखाकार, भापासं, कोटा, श्री भगवान दीन चौधरी (वेतन मैट्रिक्स में लेवल 7) को दिनांक 07/10/2016 के अपराहन से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 में भारी पानी संयंत्र, कोटा में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

के. एस. पिल्लै
प्रशासन अधिकारी—III

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
(कम्पनी रजिस्ट्रार का कार्यालय)

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जम्मू-180012, दिनांक 6 अक्टूबर 2016

सं. आरओसी/जम्मू/560(5)/एफ.टी.ई.-2016-17—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में, एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिये गये हैं तथा इस सूचना के प्रकाशित होने के तारीख से कम्पनियां विघटित समझी जाएंगी।

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	यु74999जेके2015पीटीसी004442	मैसर्ज लक्की ब्रॉदर्स ट्रांसपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
2.	यु70102जेके2009पीटीसी003075	मैसर्ज टेम्पल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	यु15122जेके2014पीटीसी004203	मैसर्ज जेआर ड्राई फरुट कॉर्नर प्राइवेट लिमिटेड
4.	यु74900जेके2010पीटीसी003184	मैसर्ज एसएफएसके ग्रेनाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
5.	यु63040जेके2000पीटीसी002092	मैसर्ज गोल्डन सनशाइन टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड
6.	यु55101जेके2008पीटीसी002861	मैसर्ज चार्म वुड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	यु85190जेके2000पीटीसी002090	मैसर्ज शिव आस्था हैल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड
8.	यु17114जेके1985पीटीसी000797	मैसर्ज जे0के0 शोड्डी स्पीनर्स एण्ड प्रोसैसर्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	यु31300जेके2007पीटीसी002730	मैसर्ज श्री बाला जी केबल्स प्राइवेट लिमिटेड
10.	यु26959जेके2007पीटीसी002733	मैसर्ज श्री बाला जी मैनुफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड
11.	यु45209जेके2007पीटीसी002835	मैसर्ज श्री माता वैष्णो देवी बिल्डर्स एण्ड डिवेलप्स प्राइवेट लिमिटेड
12.	यु45200जेके2008पीटीसी002893	मैसर्ज के0सी0 मल्टीपलैक्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
13.	यु45209जेके2012पीटीसी003598	मैसर्ज इसमाइल बिल्डर्स एण्ड डिवेलप्स प्राइवेट लिमिटेड
14.	यु55100जेके1992पीटीसी001281	मैसर्ज बिलाल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	यु63040जेके2014ओपीसी004277	मैसर्ज रेडिसकवर इंडिया टूर एण्ड ट्रेवलस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी पंजीकार
जम्मू और कश्मीर

लिमिटेड लाईविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 तथा निम्नलिखित एल.एल.पी के मामले में :-

जम्मू-180012, दिनांक 6 अक्तूबर 2016

सं. आरओसी/जम्मू/एल.एल.पी.-75/2016-17—उपरोक्त विषय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित हेतु एल.एल.पी. नियम 2009 का नियम 37(3) के साथ पठित लिमिटेड लाईविलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 75 के अन्तर्गत निम्नलिखित 3 एल.एल.पी. के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए हैं तथा वे एल.एल.पी. विघटित कर दी गई हैं :-

क्रम सं.	एलएलपीआईएन	एलएलपी का नाम
1.	AAA-1979	मैसर्ज आरएसजी स्पेशलिटी हेल्थ फूड्स एल.एल.पी.
2.	AAB-0787	मैसर्ज दृष्टि एक्सीलेंस सर्विसस एल.एल.पी.
3.	AAB-4893	मैसर्ज जीएमए ब्रोर्क्स एण्ड क्लेमस कन्सलटैंट्स एल.एल.पी.

ओ. पी. शर्मा
कम्पनी पंजीकार
जम्मू और कश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

मुम्बई-400002, दिनांक 7 दिसम्बर 2016

सं. आरओसी/से.560.एफटीई-2011/1191—कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप धारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियाँ विघटित कर दी गई हैं :-

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
1	सिद्धचक्र डिजिटल सिम्टीम्स प्रा. ली.	U32100MH1991PTC063071	C46553335
2	रॉयल मरीन सविसेस प्रा. ली.	U63032MH2008PTC181020	C40332892
3	टेचआर्क कंसलटन्सी प्रा. ली.	U74140MH2007PTC173704	C50857739
4	इमाकुलेट मैनेजमेंट सोलुशन्स प्रा. ली.	U74140MH2007PTC174240	C38321360
5	माम हाल एन्टरटेनमेंट प्रा. ली.	U74999MH2015PTC263510	C61882494
6	अनसिम कंसलटन्ट्स प्रा. ली.	U74140MH2005PTC158143	C48318646
7	गोलडन लिंकस रिअल्टर्स अँड डेव्हलपर्स प्रा. ली.	U70109MH2010PTC208435	C61500344
8	सिग्नेट ओव्हरसिज प्रा. ली.	U51900MH1993PTC075429	C46954384
9	एसार सिमेंट्स प्रा. ली.	U26940MH2008PLC185664	C62207097
10	एनसोकवेस्ट सोलुशन्स प्रा. ली.	U74990MH2008PTC188992	C50362151
11	फ्यु गुड मेन्स इव्हेन्ट्स प्रा. ली.	U93030MH2013PTC242760	C79049813
12	क्वॉलिअन्स अपरेल एक्सपोर्ट्स प्रा. ली.	U18101MH1995PTC090176	C61790093
13	अतुल्य डायस्टफ प्रा. ली.	U24114MH1993PTC071018	C66020017
14	हवान कमोडिटीज प्रा. ली.	U74999MH2013PTC249559	C45149614
15	वेजिटेबल ऑइल मैन्यु. कं. प्रा. ली.	U15140MH1953PTC011541	C39273701
16	मेडियाशॉप (इंडिया) प्रा. ली.	U92110MH1993PTC075515	C61557823

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
17	पोटबेली ब्रेहाउस प्रा. ली.	U15122MH2012PTC233584	C61124889
18	सेंट्रीका रियल्टी प्रा. ली.	U45400MH2007PTC174571	C46166989
19	महा सेक्युरिटाइज़ेशन सर्विसेस प्रा. ली.	U74140MH2003PTC141404	C57422081
20	इंडसॉफ्ट सिस्टिम्स प्रा. ली.	U72900MH2000PTC123703	C48240279
21	पारगल कंसलटन्ट्स प्रा. ली.	U74140MH1982PTC028642	C39167820
22	ब्रेनट्री वेबटेक (इंडिया) प्रा. ली.	U74999MH2002PTC135703	C61436234
23	अलुफिन्स (इंडिया) फ्रेब्रिकेटर्स प्रा. ली.	U28111MH1988PTC049722	C50994367
24	श्रद्धा मॅनेटमेन्ट अँड वेअरहाउसिंग प्रा. ली.	U74900MH1993PTC075673	C51138485
25	एबीसी फेब्रिकॉन प्रा. ली.	U45400MH2010PTC199017	C40637134
26	सुप्रा बायोटेक (थाणे) प्रा. ली.	U24110MH1996PTC096876	C69968410
27	एस पी फ्रेब्रिक्स प्रा. ली.	U52100MH2011PTC217437	C39778139
28	आस्था ट्रेन्ड्स प्रा. ली.	U52390MH2011PTC217436	C39777008
29	अरवीड निलसन इंडिया प्रा. ली.	U29268MH2009PTC190894	C38909826
30	ट्रिबुट मर्कन्टाइल प्रा. ली.	U51109MH2009PTC193859	C69069490
31	व्हॅल्यू ट्रेडिंग प्रा. ली.	U51109MH2009PTC193099	C69070142
32	परस्पेक्टिव्ह मर्कन्टाइल प्रा. ली.	U51109MH2009PTC193101	C69854289
33	इंडेज रिचटर नर्सरिज प्रा. ली.	U01122MH2006PTC162866	C01273689
34	इंज़िक्स रिटेल प्रा. ली.	U51909MH2008PTC180892	C01274398
35	तुलसी साहित्य मेडिया प्रा. ली.	U92141MH1997PTC110166	C27300367
36	तोंगसेपाटिल गृहनिर्माण प्रा. ली.	U74120MH2015PTC263883	C62136072
37	मनी मशिन सोलुशन्स प्रा. ली.	U31501MH2013PTC250268	C18978700
38	एमएनसीमार्ट इंडिया प्रा. ली.	U52399MH2009PTC193653	C40371817
39	बॉलीवुड फिल्मस प्रा. ली.	U92132MH2001PLC133871	C45345642
40	शिव अभी कंसल्टकशन्स प्रा. ली.	U45201MH2010PTC199903	C70260153
41	तिर्थ हॉस्पिटैलीटी लिमिटेड	U55204MH2012PLC225924	C70231048
42	युनाइटेड इन्फ्रा अँड डेव्हलपर्स प्रा. ली.	U70109MH2012PTC234839	C70262225
43	व्ही. सी कुमारन अँड सन्स इनव्हेस्टमेंट प्रा. ली.	U99999MH1979PTC021112	C50366046
44	चेस लिज़िंग प्रा. ली.	U65920MH1989PLC054088	C65840118
45	कॉन्ट्रैक्ट बॉटलिंग कंपनी प्रा. ली.	U15500MH1996PTC099835	C50366343
46	शाइन रिसोर्सेस (इंडिया) प्रा. ली.	U51496MH2005PTC155137	C82329905

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
47	वेलॉक्स लॉजीस्टिक्स प्रा. ली.	U63000MH2009PTC191173	C40442873
48	41 ट्रेडिंग कंपनी प्रा. ली.	U51909MH2010PTC206423	C66415241
49	जेमिनी लाइफ सायंन्स प्रा. ली.	U24239MH2010PTC209945	C49123003
50	विरल डिजिटल कलर लैब प्रा. ली.	U74940MH2004PTC148070	C44035863
51	नारायण इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. ली.	U45201MH2007PTC177159	C41438300
52	नारायण मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल्स प्रा. ली.	U85110MH2011PTC220765	C41525312
53	विब्रेर एक्सपोर्ट्स प्रा. ली.	U74120MH2013PTC249425	C50361567
54	रिशी गार्डन रिसोर्ट्स प्रा. ली.	U55102MH1997PTC110074	C46977013
55	फाउंटन हेड II क्लिनटेक इंडिया प्रा. ली.	U74990MH2010PTC200244	C41244401
56	इंटग्रोन अंडव्हायडरी सर्विसेस अण्ड डेव्हलपमेंट प्रा. ली.	U74999MH2002PTC134614	C62871942
57	सीएलएसएस फिल्म अण्ड टेलिविजन प्रा. ली.	U74990MH2009PTC190647	C55144307
58	देवल सेल्स प्रा. ली.	U45400MH2011PTC217129	C48533830
59	सागरदर्शन सेल्स प्रा. ली.	U51109MH2011PTC217005	C48534218
60	मनमीत सेल्स प्रा. ली.	U45400MH2011PTC216792	C48533988
61	मान इन्फ्रा ट्रेड प्रा. ली.	U45202MH2011PTC213699	C52836616
62	ग्रेस आर्कड प्रॉपर्टीज प्रा. ली.	U70100MH1995PTC089609	C58588674
63	टे-डिम फायनान्स अण्ड इनव्हेस्टमेंट प्रा. ली.	U65990MH1995PTC092308	C58584434
64	मुनाझफ रिअल्टर्स प्रा. ली.	U45202MH2007PTC176549	C41563222
65	पानइंडिया कार्गो प्रा. ली.	U63090MH2003PTC141251	C41033077
66	डाय डायमंड लिंक प्रा. ली.	U36910MH2007PTC173491	C47607007
67	क्लासमेट कॉस्पैक प्रा. ली.	U21029MH2008PTC182817	C46530234
68	झेउसमेड टेक्नॉसॉजीस प्रा. ली.	U51909MH2007PTC167435	C46660239
69	मेट्रोपॉलिटन हार्ट इन्स्टिट्यूट अण्ड रिसर्च सेंटर (इंडिया) लिमिटेड	U85195MH2000PLC126223	C53915674
70	नॉर्थ ओक सेक्युअर इनव्हेस्टमेंट्स प्रा. ली.	U67100MH2005PTC152630	C32270290
71	बॉम्बे कोलाबरेटिव्ह अर्बन डिज़ाइन अण्ड कंज़र्वेशन प्रा. ली.	U74210MH1998PTC113743	C40951527
72	उमा सिने फिल्मस प्रा. ली.	U92110MH1972PTC015761	C45944659
73	ओव्हरसीज इम्पेक्स प्रा. ली.	U29299MH1957PTC010972	C48181507
74	साइका फार्मासिटिकल्स प्रा. ली.	U24230MH2003PTC139585	C56442627
75	इफिटेक टेलीसर्विसेस (इंडिया) प्रा. ली.	U52510MH2004PTC144257	C50051457

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
76	क्वीकबिल्ड कंसल्टकशन्स प्रा. ली.	U45400MH2012PTC235669	C56210537
77	अवन्ती डेव्हलपर्स प्रा. ली.	U45400MH2012PTC229821	C38727756
78	शाह रिअल्टी अँड बिल्डर्स प्रा. ली.	U45203MH2013PTC250603	C61759809
79	डिलीसमॅडोक इन्फोटेक प्रा. ली.	U72900MH2012PTC234549	C31209059
80	सेकंड फ्लाइट ब्रोडबैंड प्रा. ली.	U74999MH2014PTC253189	C39004577
81	आशियानेक्स्ट कमोडिटीज एक्सचेंज लि.	U51909MH2010PLC208986	C39145883
82	टैक्टोमत इंडिया प्रा. ली.	U51900MH2013PTC248588	C56489248
83	एफ एस डी टिम्बर प्रा. ली.	U02001MH1979PTC021905	C55764286
84	संकल्प फॉर्इल्स प्रा.लि.	U27200MH2004PTC149403	C65910028
85	अद्या इस्टेट डेवलपर्स प्रा.लि.	U45200MH2007PTC167446	C56049588
86	प्लैन्टसर्व टेक्नॉलॉजीस प्रा.लि.	U74900MH2010PTC205914	C82586090
87	अमित शेअर ट्रेडिंग प्रा.लि.	U99999MH1992PTC068189	C62611454
88	बोधान्हा आर्ट्स फाउन्डेशन प्रा.लि.	U51900MH2007PTC175700	C35013069
89	अम्रीथा जीआरएम कॉम्पोसीइट्स प्रा.लि.	U74900MH2010PTC201836	C56259427
90	थस्टीफीश मार्केटिंग प्रा.लि.	U22130MH2009PTC197652	C80544380
91	सॅमसंग स्टिल्स प्रा.लि.	U27107MH1997PTC110574	C61978904
92	अस्थांग हॉस्पिटल एन्ड रिसर्च प्रा.लि.	U85110MH2008PTC178788	C57418048
93	टीआरएस एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स प्रा.लि.	U64120MH2011PTC211785	C40737751
94	एफओसी लॉजीस्ट प्रा.लि.	U64120MH2011PTC213889	C43090828
95	पीएनएस इंपेक्स प्रा.लि.	U52190MH2007PTC174174	C49714249
96	सील्वरफ्लॅग ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लि.	U51909MH2004PTC148533	C61244299
97	एक्झीमीयुस इंटरऑक्टिव प्रा.लि.	U72200MH2011PTC215520	C48206387
98	विक्रम प्रॉडक्शन्स प्रा.लि.	U92110MH1995PTC094633	C63512388
99	ए एम आर स्टिल इंडस्ट्रिज प्रा.लि.	U27100MH2010PTC203176	C46738746
100	नीको इन्फोटेक प्रा.लि.	U72200MH2000PTC129747	C54944657
101	रदीअंत पॉलीग्रेन प्रा.लि.	U25199MH2012PTC226555	C62616651
102	स्टैटयूरे होम्स एन्ड क्रियेशन्स प्रा.लि.	U45400MH2012PTC232606	C74670407
103	लेवल लॉजीस्ट सोल्यूशन प्रा.लि.	U60200MH2010PTC203432	C50813971
104	विनायक इंपेक्स प्रा.लि.	U15900MH1985PTC036715	C41489105
105	ओरीऑन अल ट्नेटीव असेट्स प्रा.लि.	U67190MH2008PTC187332	C55898126

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
106	अनुभवदर्शन बिल्डकॉन प्रा.लि.	U45201MH2006PTC163588	C40066714
107	जगदंबा बिल्डकॉन प्रा.लि.	U45200MH2006PTC160354	C36313617
108	पांडूरंग कृपा अंग्रो प्रा.लि.	U01403MH2011PTC224996	C62139845
109	निर्मल लाईफस्टाईल (ठाणें) प्रा.लि.	U85100MH2007PTC168970	C48519433
110	निर्मल इन्फ्रास्ट्रक्चर (अहमदाबाद) प्रा.लि.	U74999MH2007PTC167931	C45876463
111	निर्मल सर्विस अर्पाटमेंट्स प्रा.लि.	U74999MH2007PTC167959	C48501415
112	निर्मल लाईफस्टाईल (वसई) प्रा.लि.	U74999MH2007PTC169678	C48520894
113	निर्मल लाईफस्टाईल (पनवेल) प्रा.लि.	U45400MH2007PTC169422	C48521835
114	निर्मल लाईफस्टाईल (नाशिक) प्रा.लि.	U85100MH2007PTC169339	C45871449
115	निर्मल इन्फ्रास्ट्रक्चर (गुजराथ) प्रा.लि.	U45203MH2007PTC169421	C46662342
116	निर्मल इन्फ्रास्ट्रक्चर (डोंबिवली) प्रा.लि.	U45203MH2007PTC169376	C48502769
117	इस्ट इंडिया रिअलटीज प्रा.लि.	U45202MH2009PTC196147	C48503353
118	निर्मल ई-लाईफस्टाईल्स प्रा.लि.	U72900MH2010PTC205363	C48517072
119	दोमाईन कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH2004PTC148253	C41541848
120	केअरटेकर कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.	U45200MH2004PTC149710	C41543067
121	बिज्ञदा टेक्नोसॉफ्ट प्रा.लि.	U74120MH2012PTC233341	C43001825
122	लॉरेलटन डायमंड्स (इंडिया) प्रा.लि.	U74999MH2013FTC245558	C70733290
123	अॅवेलॉन मरीन प्रा.लि.	U63090MH2001PTC133390	C65799082
124	अॅवेलॉन ट्रेडिंग प्रा.लि.	U51103MH2006PTC160562	C65799728
125	तलासारीया दिप इंटरप्राइसेस प्रा.लि.	U51101MH2010PTC200208	C57479370
126	टिल स्टार पॉवर प्रा.लि.	U40109MH2011PTC224833	C40057929
127	सीएसएस प्रोइसेस मैनेजमेंट कंपनी प्रा.लि.	U67120MH1999PTC120887	C37677184
128	पॉप्यूलस मैनपॉवर सर्विसेस प्रा.लि.	U74910MH2006PTC162935	C59336057
129	डान्स डेव्हलपर्स प्रा. ली.	U45201MH2011PTC214678	C49845316
130	बिबि रिटेल प्रा. ली.	U52100MH2012PTC225859	C44062776
131	कोनाटस टेक्नॉलॉजीस प्रा. ली.	U74999MH2012PTC234804	C45822905
132	गोल्डन झेबेक इन्फ्लेटेबल्स प्रा. ली.	U35100MH2007PTC174798	C48244057
133	सिवे बिल्डर्स अण्ड डेव्हलपर्स प्रा. ली.	U45202MH2009PTC197508	C55234959
134	लिक्स डेव्हलपर्स प्रा. ली.	U70102MH2013PTC241211	C55707202

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
135	इंगोलेस परिपुर्ती कोचिंग क्लासेस प्रा. ली.	U80903MH2010PTC201409	C46056636
136	सन-ब्लेन्ड कंसलटन्सी प्रा. ली.	U74900MH2010PTC199167	C50443621
137	ओमेरगा स्कैन सेंटर प्रा. ली.	U85100MH2007PTC170945	C60692324
138	एडएस मोटर्स प्रा. ली.	U34103MH2008PTC183191	C38045738
139	फर्स्ट सोलर क्लिन एनर्जी प्रा. ली.	U40106MH2010PTC207626	C46322384
140	जिएमपी (इंडिया) प्रा. ली.	U74999MH2002PTC137863	C40959199
141	अँड्री डेव्हलपर्स प्रा. ली.	U51900MH1976PTC018997	C43066422
142	चैम्पीअन पॉलीटेक प्रा. ली.	U25199MH2006PTC164611	C62890371
143	अँडव्हेन्ट वेल्ड टेक इन्स्टीट्यूट प्रा. ली.	U80900MH2011PTC212290	C37410768
144	सन अँड काउ सेक्युरिटीज प्रा. ली.	U67120MH1999PTC121841	C27759315
145	चेरब इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. ली.	U45200MH2008PTC185192	C41612573
146	थर्टीसेवन डिग्रिज टेक्नोलॉजिस इंडिया प्रा. ली.	U72300MH2000PTC129682	C66250754
147	फुटबलून स्पोर्ट्स मैनेजमेंट सर्विसेस कंपनी प्रा. ली.	U92412MH2012PTC234429	C46598181
148	अल्फावेदा लर्निंग एज प्रा. ली.	U80900MH2013PTC241223	C50306315
149	फ्लोरा 2000 गिफ्टिंग अँड डिज़ाइन प्रा. ली.	U74120MH2010PTC203251	C51151348
150	प्रजा ट्रेड फायनांसिंग प्रा. ली.	U65990MH2006PTC160653	C45110418
151	वॉचटॉवर एनर्जी प्रा. ली.	U40101MH2010PTC204231	C51600369
152	टि. एच एजन्सीज प्रा. ली.	U74120MH2013PTC240339	C36844165
153	फॉन्टीअल कंसलटन्ट्स प्रा. ली.	U74140MH2011PTC212535	C55285068
154	सेलरॉन फैशन्स प्रा. ली.	U17299MH2007PTC172188	C46980249
155	राहुल दोशी अँड सन्स प्रॉपर्टिज प्रा. ली.	U45202MH2009PTC189542	C38116406
156	केबीसी कॅपीटल मैनेजर्स प्रा. ली.	U74900MH2008PTC177866	C41259706
157	लवी रिअल इस्टेट अँडव्हायज़र्स प्रा. ली.	U70102MH2011PTC225122	C62486014
158	विनोद सिन्टेक्स प्रा. ली.	U99999MH1986PTC040348	C46468195
159	सनस्टार फार्मा लि.	U65990MH1981PLC025526	C46124079
160	चवेली एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्रा. ली.	U99999MH2006PTC159431	C72274947
161	फ्रेन्को इंटरनैशनल इंडिया प्रा. ली.	U74900MH2008PTC188641	C36265676
162	फिल्ममेकर्स सिनेमा प्रा. ली.	U92120MH2008PTC185949	C55759344
163	कनकीया रोटुंदा कंस्ट्रक्शन्स प्रा. ली.	U45400MH2010PTC207817	C48378368
164	रेड बेली कंस्ट्रक्शन्स प्रा. ली.	U45203MH2010PTC201420	C48056618

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
165	कारमेल कंन्सट्रक्शन्स प्रा. ली.	U45400MH2010PTC201359	C48056576
166	बेव्हर्लि पार्क कंन्सट्रक्शन्स प्रा. ली.	U45202MH2010PTC201390	C48055438
167	खुशविन सेक्युरिटिज प्रा. ली.	U74992MH2010PTC206778	C57524118
168	पुटको रिअल इस्टेट प्रा. ली.	U29220MH1993PTC070930	C38334421
169	सारिका बिल्डकॉन प्रा. ली.	U70109MH2011PTC212120	C48321004
170	मार्क मेटल इंडस्ट्रीज प्रा. ली.	U27200MH1987PTC043363	C38365631
171	विन्च एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्रा. ली.	U74900MH2008PTC184696	C45281904
172	पेन्टैड हॉस्पिटैलिटी प्रा. ली.	U55101MH2007PTC176015	C45280930
173	फॉलकॉन इंटीग्रेटेड फॅसिलिटी सर्विसेस प्रा. ली.	U93030MH2011PTC216226	C48471296
174	जेसवाल इनफ्राटीच प्रा. ली.	U45200MH2010PTC198755	C44122083
175	सनराईस मेमब्रेन्स टेक्नालॉजीस प्रा. ली.	U31200MH1988PTC049047	C78530664
176	ट्रिनिटि रेडीअन्स प्रा. ली.	U18109MH2013PTC245869	C45124955
177	ट्रिनिटि अँगोसोलुशन्स प्रा. ली.	U01403MH2013PTC245010	C45125770
178	रायटर्स बुरेयू इंडिया प्रा. ली.	U80211MH2009PTC190738	C41616764
179	सिध्दा औषध प्रा. ली.	U24233MH2007PTC174869	C37566957
180	सिध्दा इनफोसोलयूशन प्रा. ली.	U72200MH2007PTC174868	C37577574
181	रेडिकल सीसटीच (इंडिया) प्रा. ली.	U72100MH2000PTC125775	C56549850
182	एरिस्टोटले सॉफ्टवेयर कन्सुलिंग एण्डरिसर्च प्रा. ली.	U72200MH2007PTC174586	C62402839
183	एएमएस इंटरैक्टिव मिडीया प्रा. ली.	U72900MH2002PTC134935	C38036414
184	श्री परमबादूर इंडियन लॉजीस्टीक्स प्रा. ली.	U63000MH2008PTC188017	C46718540
185	राँयल इनफारमेशन सीसटंम्स प्रा. ली.	U72200MH2009PTC197590	C45296167
186	अहूरा इनफ्रास्ट्रक्चर्स प्रा. ली.	U45202MH2007PTC174003	C46294112
187	अंबीका आईस फैक्ट्री प्रा. ली.	U15544MH1995PTC092373	C38793113
188	पले ब्लू डॉट सोलुशन्स प्रा. ली.	U72200MH2004PTC146135	C40315665
189	पोर्ट सिटी इनफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेन्ट (इंडिया) प्रा. ली.	U45202MH1996PLC217040	C58555293
190	बीवीए इनटरप्राइजेस प्रा. ली.	U52609MH2010PTC204110	C29209855
191	आय बी स्टील कंपनी प्रा. ली.	U28910MH2010PTC211344	C50454453
192	प्रथमेश इड्यू इनफ्रा प्रा. ली.	U80101MH2008PTC179573	C54821285
193	तापस डेवलपर्स प्रा. ली.	U45400MH2007PTC175440	C39597067

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
194	अडवास्ड क्लीनींग प्रा. ली.	U24246MH1998PTC115096	C35444918
195	निच वेन्चर प्रा. ली.	U52390MH2009PTC197403	C55866669
196	हरिपेक सिक्यूरिटी कं. प्रा. ली. ऑफ इंडिया प्रा. ली.	U65999MH2009PTC189298	C29865458
197	एन्टीड्रीग मीडिया प्रा. ली.	U72100MH2013PTC248237	C48522254
198	ऑनलाईन क्रेटीव कन्टेन्ट राईटिंग सर्विसेस प्रा. ली.	U72900MH2004PTC150327	C48522734
199	ऑक्सिविट हेल्थकेअर प्रा. ली.	U85100MH2007PTC173150	C40801144
200	मुरबाड सिन्टेक्स प्रा. ली.	U17120MH1983PTC029183	C39960950
201	ट्रिटॉन कन्टेनिअर्स प्रा. ली.	U28120MH1992PTC068349	C41599168
202	फार्मस टू किचेन प्रा. ली.	U52100MH2013PTC239610	C55292411
203	एवरग्रीन रीचर्स एण्ड असेस्ट मॅनेजमेन्ट प्रा. ली.	U65990MH1991PTC063019	C55784854
204	तारा फाईबरेस प्रा. ली.	U17100MH2002PTC137420	C61356408
205	हरिओम काँटन प्रा. ली.	U17110MH2002PTC137393	C61357240
206	आइरिक एज्युकेशन प्रा. ली.	U80904MH2013PTC242484	C38117651
207	रिडा फारेक्स (इंडिया) प्रा. ली.	U74990MH2004PTC149007	C37438413
208	जीएनआर इन्विपमेन्ट (इ) प्रा. ली.	U74999MH2003PTC142090	C41543141
209	कपिलेश्वर शुगर प्रा. ली.	U15500MH2013PTC243135	C60624871
210	डीजेआर कनसलटन्स प्रा. ली.	U74140MH2008PTC186159	C60609153
211	रिलायन्स अँगो ट्रेडिंग एण्ड मार्केटिंग प्रा. ली.	U51101MH2008PTC181260	C62735105
212	भाटे प्रॉपर्टीज अण्ड रिसोर्ट्स प्रा. ली.	U70200MH2013PTC244245	C62734108
213	प्फाइंग पिग ट्रेडिंग कंपनी प्रा. ली.	U51109MH2009PTC195921	C39385810
214	गाड़ी कन्सल्टन्स प्रा. ली.	U45400MH2013PTC239973	C57927774
215	युडीबिएल ग्रुप प्रा. ली.	U74999MH2014PTC251727	C48579536
216	बिर्ला कारपेट्स अण्ड ग्रास प्रा. ली.	U17226MH2006PTC165055	C04949343
217	अनिडे मॅनेजमेन्ट प्रा. ली.	U93000MH2010PTC202388	C45857901
218	सुमित रोडलाइन्स प्रा. ली.	U63090MH1999PTC123110	C39431218
219	अजय इस्टेट डेव्लपर्स प्रा. ली.	U45200MH1982PTC027616	C61638144
220	स्कील नॉलेज सिटिज प्रा. ली.	U80301MH2007PTC169540	C59341842
221	स्कील मॅरिटाइम अण्ड लॉजीस्टिक्स वेंचर्स लिमिटेड	U63000MH2009PLC189629	C39364112
222	जोशन ग्लोबल सर्विसेस प्रा. ली.	U72900MH2008PTC188628	C81638439
223	विडिआयएल सिप्ड इंडिया प्रा. ली.	U36912MH2013PTC240509	C47376140

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
224	साइ लक्ष्मी इंजिनिअरिंग प्रा. ली.	U29268MH2010PTC210681	C70036363
225	कैलिको हेल्थकेअर प्रा. ली.	U24230MH2003PTC142820	C37306289
226	लाइव्हेल इन्फोवे प्रा. ली.	U72200MH2000PTC129496	C47622360
227	हेल्थवाइज मेडिकल सर्विसेस प्रा. ली.	U85100MH2008PTC188827	C45122173
228	अँकर ऑरगॅनीक प्रा. ली.	U24100MH2010PTC200360	C45359692
229	रेविओझोन हायड्रो एनर्जीज प्रा. ली.	U40101MH2008PTC185294	C60999083
230	अलाय नेस्ट प्रा. ली.	U45200MH2005PTC152610	C44564516
231	कांजन हर्बल्स प्रा. ली.	U24230MH2004PTC143877	C29624889
232	अनुश्री सिंथेटिक्स प्रा. ली.	U17110MH1987PTC044598	C61534590
233	अब्याझ टेक्सटाइन्स प्रा. ली.	U18109MH2014PTC251992	C56420573
234	ट्रॉम्बे नवनिर्माण प्रा. ली.	U45200MH2011PTC225084	C37889904
235	क्लिफमेड कंसलटन्ट्स प्रा. ली.	U74999MH1994PTC077121	C42601245
236	श्री सदगुरु ट्रॅवल्स प्रा. ली.	U60210MH2001PTC133779	C38019402
237	पिएमआय ग्रीन गोल्ड अँनीमेशन प्रा. ली.	U92110MH2005PTC156813	C40095689
238	वेलानकिन सर्विसेस प्रा. ली.	U72200MH2008PTC184456	C37887379
239	क्रिस्टाल इन्फ्रा प्रा. ली.	U45200MH2007PTC169630	C71626733
240	सिपको ट्रेडिंग प्रा. ली.	U51109MH2008PTC187963	C40227696
241	लॉजिकॅश सर्विसेस प्रा. ली.	U74900MH2013PTC243136	C43897479
242	ट्रान्सट्रेझर सोलुशन्स प्रा. ली.	U74900MH2013PTC242497	C43898055
243	अराझऑफ्ट सोलुशन्स प्रा. ली.	U72900MH2013PTC241963	C62543780
244	ऑरसन ड्रग्स अँड सर्जिकल्स प्रा. ली.	U24230MH1997PTC108772	C41593096
245	खेराज टुर्स अँड ट्रॅवल्स प्रा. ली.	U63040MH2001PTC131742	C55043137
246	पराजीका मल्टीट्रेडिंग प्रा. ली.	U74999MH2011PTC213389	C34719591
247	गितांजली इम्पेक्स प्रा. ली.	U36912MH1995PTC093747	C56391147
248	सी. एम शाह अँड कंपनी प्रा. ली.	U74140MH1971PTC015107	C42760926
249	सितार इंडस्ट्रिज प्रा. ली.	U15492MH2008PTC177680	C60689148
250	सनसुलेट इन्शुलेशन प्रा. ली.	U51432MH2007PTC172973	C46461653
251	लिप एन्टरप्राइज़ सोलुशन्स प्रा. ली.	U74999MH2011PTC218887	C42610063
252	चामरीया प्रिन्ट अँड पैक प्रा. ली.	U21010MH1997PTC107463	C38120283

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
253	डायनापॉक इंजिनिअरिंग प्रा. ली.	U28920MH2001PTC132155	C36015923
254	झुबिन एन्टरप्राइजेस लिमिटेड	U51900MH1997PLC107265	C40910135
255	श्री टाउनशीप प्रा. ली.	U45201MH2001PTC132061	C40650921
256	एअॉन मॅनेजर्स प्रा. ली.	U74120MH2013PTC243485	C61211322
257	फ्रंटलाईन फुड प्रोसेसर्स प्रा. लिमिटेड	U15100MH1993PTC074016	C49853690
258	कोपरगाव प्लास्टोफ्लेक्स प्रा. लिमिटेड	U25209MH1991PTC062770	C49842404
259	बाहुबली पॉलिमर्स अँड पॉलिएस्टर्स प्रा. लिमिटेड	U25200MH1997PTC105642	C49792963
260	सिम्बोल सिस्टिम्स ऑफ इंडिया प्रा. लिमिटेड	U72900MH1997PTC109917	C61348801
261	न्युएज इन्डस्ट्रीज फायर प्रोटेक्शन इंजिनीअर्स प्रा. लिमिटेड	U29253MH2010PTC208807	C46219457
262	हिंद हजिरा टर्मिनल्स प्रा. लिमिटेड	U74120MH2012PTC227466	C40500357
263	शराफ सेसे ऑटो लॉजिस्टिक्स प्रा. लिमिटेड	U74999MH2009PTC193080	C69473064
264	ऑप्टुशन एसएफएक्स स्टुडिओज प्रा. लिमिटेड	U92120MH2008PTC183546	C37621810
265	फ्लेक्सिकन ट्रेडिंग प्रा. लिमिटेड	U51900MH1995PTC084821	C33111949
266	रिशभ पल्सिस प्रा. लिमिटेड	U01111MH2001PTC133283	C46220992
267	एज अॅप्लायसिंस प्रा. लिमिटेड	U32204MH2010PTC204900	C40370454
268	कृषनानी यार्डस प्रा. लिमिटेड	U63000MH2008PTC188411	C71771232
269	मेडिट्रिना फार्मस प्रा. लिमिटेड	U01403MH2008PTC182763	C46176574
270	सिरेस फार्मस प्रा. लिमिटेड	U01407MH2008PTC183296	C46175279
271	कन्सस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स प्रा. लिमिटेड	U45400MH2011PTC212485	C44549384
272	एन ए क्लासिकल ऑडिओ कॅसेट्स प्रा. लिमिटेड	U32303MH1995PTC094155	C43125848
273	आयबीडी जेआयसी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स प्रा. लिमिटेड	U70100MH2012PTC235798	C56725401
274	इशान्ह डेव्हलपर्स प्रा. लिमिटेड	U70109MH2013PTC240954	C61330148
275	अॅमेझोन हेल्थ सर्विसिस प्रा. लिमिटेड	U85100MH2008PTC184321	C55771828
276	लोवेल लांबडा मुरहो ऑइलनर्जी प्रा. लिमिटेड	U11200MH2004PTC147989	C42703561
277	मॅवरिक रियलटर्स प्रा. लिमिटेड	U70100MH1995PTC091855	C55183446
278	सुमंगल आर्ट अँड प्रेस प्रा. लिमिटेड	U22219MH2013PTC240706	C38926168
279	वन इंच एन्टरटेन्मेंट प्रा. लिमिटेड	U92140MH2006PTC158574	C41372764
280	ब्लुस्वान सिंडिकेट मल्टिमिडिया प्रा. लिमिटेड	U92412MH2012PTC231166	C57313066
281	प्रेरणा प्रोटीन थेराप्युटिक्स प्रा. लिमिटेड	U24232MH2010PTC208902	C37332574
282	ट्विंकल एरोकॉसमेटिक्स प्रा. लिमिटेड	U24246MH1991PTC064144	C43139955

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
283	ब्ल्यू आर्ट प्रोसेसर्स प्रा. लिमिटेड	U99999MH1997PTC107276	C43122902
284	अल्प्स वेली रियलटर्स प्रा. लिमिटेड	U70101MH2009PTC190301	C46143491
285	पीबीएल मल्टिसर्विसिस प्रा. लिमिटेड	U67190MH2011PTC215907	C33471384
286	उस्मान डेव्हलपर्स प्रा. लिमिटेड	U45201MH2006PTC165994	C36346922
287	एज्युबाईट इनोवेटर्स प्रा. लिमिटेड	U80904MH2012PTC228998	C32905853
288	एम अंड एस लॉजिस्टिक्स प्रा. लिमिटेड	U51311MH1992PTC065470	C37295953
289	ग्रेट वशिष्ठी इंजिनीरींग अंड शिपबिल्डिंग प्रा. लिमिटेड	U74210MH2010PTC203817	C49876816
290	पीएनपी पैकेजिंग प्रा. लिमिटेड	U21014MH2006PTC160829	C46694048
291	गजवदन बिल्डर्स अंड डेव्हलपर्स प्रा. लिमिटेड	U70102MH2011PTC216822	C46701603
292	सुयश आयटी सर्विसिस प्रा. लिमिटेड	U72200MH2004PTC149043	C56773203
293	औसिंद वॉटर मॅनेजमेंट प्रा. लिमिटेड	U41000MH2010PTC211441	C56507502
294	इफरवेसैंट एज्युकेअर प्रा. लिमिटेड	U80902MH2013PTC239753	C41177759
295	शबली फुडस प्रा. लिमिटेड	U15100MH1992PTC069100	C38838348
296	ओलिनेक इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड	U67120MH1995PTC084931	C55773469
297	श्रेयांस अंडवायझरी सर्विसेस प्रा. ली.	U74140MH2002PTC137141	C38853503
298	सुप्राथेट हॉस्पिटल अण्ड सर्जिकल रिसर्च इन्टीट्युट लि.	U85100MH1999PLC120671	C58057837
299	आस्क नूट्रा सोलुशन्स प्रा. ली.	U15139MH2013PTC249252	C55195820
300	लविंग अर्थ ऑरगैनीक प्रा. ली.	U15122MH2012PTC230905	C47855143
301	लैम्पलाइट कम्युनिकेशन्स प्रा. ली.	U74120MH2012PTC239049	C56329329
302	रॉकिंगस्टेज एन्टरटेनमेंट प्रा. ली.	U92412MH2012PTC235088	C56330400
303	पुनम ट्रैवल्स प्रा. ली.	U63040MH1983PTC029607	C45652146
304	हॉमर कंन्सलटिंग प्रा. ली.	U93090MH2008PTC180901	C47918180
305	एक्ट्रिम टेकचेम प्रा. ली.	U29268MH2009PTC189617	C41365123
306	अॅग्रोफोयर सोलुशन्स प्रा. ली.	U72200MH2004PTC149356	C60611407
307	हर्बर्ज इंडिया प्रा. ली.	U65993MH1999PTC119510	C39956594
308	रायपुर लॉटरी भंडार प्रा. ली.	U92490MH2005PTC151405	C56507510
309	स्टारशिप टेक्नॉलॉजीज प्रा. ली.	U72900MH2000PTC125049	C48438121
310	एन कुमार होटेल्स(इं) प्रा. ली.	U74120MH2011PTC221376	C52079936
311	सिवर्ड वेस्ट बोटस प्रा. ली.	U61100MH1972PTC016027	C28450039

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
312	सुबोर प्रोफेशनल सर्विसेस प्रा. ली.	U74900MH2011PTC222080	C48568455
313	व्हेरायटि अँग्रो प्रा. ली.	U01210MH2013PTC251028	C51874782
314	पर्पल अँग्रो प्रा. ली.	U01403MH2013PTC250964	C51875821
315	मेलान अँग्रो प्रा. ली.	U01403MH2013PTC250817	C51876324
316	स्टार चापमन्स इंजिनिअरिंग प्रा. ली.	U36900MH2007PTC170762	C32929424
317	कुल अमिगो कंड्रुमर केअर प्रा. ली.	U93030MH2012PTC230513	C50278670
318	आइस एक्सप्रेस प्रा. ली.	U93000MH2008PTC179759	C41420118
319	सेटर फॉर टेक्नॉलॉजी रिसर्च अँड इनोवेशन्स प्रा. ली.	U73100MH2012PTC227852	C52396025
320	जेकेएल रिअल्टी प्रा. ली.	U70102MH2010PTC201603	C39179577
321	समर्थ शाह ट्रेडर्स (इंडिया) प्रा. ली.	U51909MH2002PTC136094	C57100315
322	मिन्ट कनेक्शन (इंडिया) प्रा. ली.	U15140MH1998PTC116311	C43090018
323	अमलटस डिज़ाइनज़ प्रा. ली.	U18101MH2010PTC211493	C56187198
324	इन्सब्रक प्रॉपर्टीज प्रा. ली.	U70100MH2010PTC201402	C51482917
325	इटनकर अँग्रो फर्म प्रा. ली.	U01407MH2010PTC201703	C45093358
326	धनश्रीमाता अँग्रो फर्म प्रा. ली.	U01400MH2010PTC201731	C45090008
327	टोपॅक फिल्ड सर्विसेस प्रा. ली.	U28910MH1989PTC052857	C41587908
328	धन इन्फ्रावेल प्रा. ली.	U74120MH2014PTC259096	C43142603
329	बिद्युत आर्ट प्रिंटर्स (इंडिया) प्रा. ली.	U22219MH2003PTC143020	C55896005
330	एम. झेड इन्फ्राबिल्ट प्रा. ली.	U74900MH2014PTC256368	C48040208
331	तह बिल्डर्स प्रा. ली.	U45202MH2008PTC179248	C62371919
332	मेहेर धातु रसायन प्रा. ली.	U28110MH2007PTC173346	C48524300
333	प्रोआर्ट प्रमोशन्स प्रा. ली.	U74999MH1995PTC087083	C31640550
334	चैत्यदिप इनव्हेस्टमेंट प्रा. ली.	U67120MH1985PTC037201	C31659428
335	सोलसन अँग्रो प्रा. ली.	U01403MH2010PTC209152	C61125399
336	आस्क क्रेडन्स प्रा. ली.	U93000MH2011PTC221343	C69359180
337	कामेन्सोल इंजिनिअरिंग सोलुशन्स प्रा. ली.	U74999MH2009PTC191322	C61816930
338	7थ स्टेज मार्केटिंग प्रा. ली.	U74999MH2011PTC217434	C61637419
339	वोलगस एन्टरटेनमेंट प्रा. ली.	U74900MH2011PTC217292	C61636817
340	पगन हॉस्पिटल सर्विसेस प्रा. लिमिटेड	U55101MH2012PTC229476	C71893341
341	लकवे लेन्ड डेव्लोपर्स प्रा. लिमिटेड	U45400MH2011PTC212125	C72157811

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
342	विकेरो गेम्सअण्ड जेवेलरी प्रा. लिमिटेड	U27205MH2011PTC212269	C72210867
343	ओप्स ट्राडे कंपनी प्रा. लिमिटेड	U74999MH2008PTC180153	C40124539
344	पारामाउन्ड डेन्टाल लाब प्रा. लिमिटेड	U85120MH2006PTC165931	C43160795
345	एस 2 एस मारीटाइम प्रा. लिमिटेड	U63012MH2006PTC164253	C54622600
346	नर्शिंग पिचर्स प्रा. लिमिटेड	U92100MH2010PTC204318	C40167173
347	माकेसुर मार्केटिंग प्रा. लिमिटेड	U74999MH2013PTC239546	C46103834
348	अल्गोल सोल्युशन्स प्रा. लिमिटेड	U74140MH2008PTC186468	C50442722
349	अवानिश डिस्ट्रीबटर्स प्रा. लिमिटेड	U51909MH2010PTC203752	C40534448
350	कंज रेमेडिस प्रा. लिमिटेड	U74120MH2012PTC229309	C55764930
351	अक्लोपोलिस फाइन केमिकल्स प्रा. लिमिटेड	U24110MH1993PTC073932	C58605908
352	पिएच म्डिया सर्विसेस प्रा.लिमिटेड	U22222MH2010PTC208457	C44634491
353	डिस्काउन्डबाबा फाशिऑन रिटाइल प्रा. लिमिटेड	U74120MH2012PTC230833	C37913126
354	इंडियन बुलिऑन अण्ड कमोडिटी एक्सचेंज प्रा. लिमिटेड	U74900MH2009PTC190736	C29662970
355	एल टी एस टेस्टील इंड्युस्ट्री प्रा. लिमिटेड	U17120MH2014PTC253481	C66277013
356	क्रियेटिव्ह चॉइस टेकपार्क (इंडिया) प्रा. ली.	U45201MH2008PTC184572	C43920222
357	इनसाइड टेक सोलुशन्स प्रा. ली.	U72300MH2013PTC243434	C31852668
358	सुपर निट विअर कंपनी प्रा. ली.	U18101MH1953PTC009065	C74506726
359	ग्रीन थंब मुहिज प्रा. ली.	U92120MH2010PTC206723	C29465044
360	परीधी वेल्थ मॅनेजमेंट प्रा. ली.	U74120MH2011PTC212029	C66303272
361	बिएनजे स्टेअर प्रा. ली.	U74140MH2014PTC253013	C62726617
362	मॉर्निंग एनर्जी फुड सर्विसेस प्रा. ली.	U93000MH2011PTC212650	C39265186
363	बेथेल स्टेनलेस स्टील वर्क्स प्रा. ली.	U28931MH2014PTC254724	C61639928
364	विटी एन्टरटेनमेंट पार्कस प्रा. ली.	U45208MH2008PTC185739	C56044324
365	स्मीत टेक्सटाइल मशिनरी मॅनुफैक्चरिंग प्रा. ली.	U29253MH2012PTC227674	C56383631
366	सिन्प्स ओव्हरसीज प्रा. ली.	U74120MH2012PTC238568	C42355529
367	केएमडी टेक्नॉलॉजीस प्रा. ली.	U72900MH2008PTC179331	C40142861
368	सीटीएल टेलिकॉम प्रा. ली.	U30000MH2005PTC154347	C43993476
369	मोहा इम्पेक्स असोसिएट्स प्रा. ली.	U51909MH2005PTC152150	C37852571
370	शिवा वेबटेक प्रा. ली.	U72900MH2008PTC178978	C40081390

क्र. सं.	कंपनी का नाम	सी आई एन संख्या	एस आर एन
371	उज्ज्वल नेटवर्किंग अँड कंसलटन्सी सर्विसेस प्रा. ली.	U74140MH2010PTC203850	C45334125
372	जीडब्ल्यूएमपीसीएल-विसी वास्ट मॅनेटमेन्ट प्रा. ली.	U90001MH2012PTC233596	C59286138
373	गल्फ-ओमकार पेट्रोविजन अँड रिफायनरीज प्रा. ली.	U23209MH2000PTC130127	C44491728
374	सुर्यतेज प्रोडक्शनस प्रा. ली.	U74999MH2009PTC192587	C48490544
375	कंटीनेंटल बिज़िनेस रिसर्च अँड सर्विसेस प्रा. ली.	U74130MH1998PTC113328	C40015877
376	इमुनो विजन प्रा. ली.	U85199MH2001PTC132868	C46594016
377	डिफिनाइट बिल्डर्स प्रा. ली.	U45400MH2011PTC223079	C62182324
378	वेदनंद एक्सपोर्ट्स प्रा. ली.	U74990MH2012PTC226394	C62183199
379	प्रताप हॉस्पिटैलीटी प्रा. ली.	U55101MH2007PTC174679	C40363145
380	हज एज मेडिया अँड एन्टरटेनमेंट प्रा. ली.	U74120MH2012PTC231673	C65920647
381	लॉसन हॉलिडेज प्रा. ली.	U55100MH2011PTC215673	C54674957
382	ऑन्टरीड ट्रेडिंग प्रा. ली.	U51909MH2008PTC188181	C71184493
383	प्रतिष्ठा सेक्युरिटिज प्रा. ली.	U67120MH1991PTC063833	C55256416
384	डि2एस इमैजिंग इंडिया प्रा. ली.	U72200MH2005PTC151162	C56075047
385	गोसन अँगो प्रा. ली.	U01403MH2008PTC181103	C59337279
386	हना नेटवर्क सोलुशन्स प्रा. ली.	U74120MH2012PTC227315	C62644679
387	हेलेना एक्सपोर्ट्स ली..	U51900MH1994PLC080117	C61333761
388	हेलेना ट्रॅव्हल अँड एक्सचेंज प्रा. ली.	U63040MH2001PTC130811	C61334231
389	एमआरएस ट्रस्टी सर्विसेस प्रा. ली.	U65999MH2006PTC165885	C62819859
390	ब्रॉडवे रबर प्रा. ली.	U25203MH2011PTC220532	C56060874
391	ओरस रिअल्टी प्रा. ली.	U70102MH2012PTC238443	C60591765
392	माकोर्ट ट्रेडिंग प्रा. ली.	U51900MH1996PTC100577	C74930462
393	पॅरीस एअर पायलट ट्रेनिंग प्रा. ली.	U62200MH2011PTC223192	C61625406
394	बैकबैचर फिल्मस प्रा. ली.	U92490MH2011PTC225014	C64941693
395	बिजिजि इन्फॉर्मेशन प्रा. ली.	U74990MH2008FTC189145	C66488453
396	तौरस रिसोर्सेस प्रा. ली.	U74120MH2011PTC221259	C48864342
397	क्लाउडर इन रिअल इस्टेट टेक्नॉलॉजी सर्विसेस प्रा. ली.	U74140MH2009FTC198187	C55053169
398	युनो क्रॉप सायन्स प्रा. ली.	U01403MH2009PTC196462	C30162101

एस. पी. कुमार
कंपनी रजिस्ट्रार
महाराष्ट्र

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 15th December 2016

No. F.20/2016-SCA(I)—Hon'ble the Chief Justice of India has been pleased to appoint/promote the following Officers/officials to the post and with effect from the date mentioned against their names :—

Sl.No.	Name & Designation	Post on which appointed/promoted & Date
1.	Ms. Jasmine Sharma, Deputy Registrar	Additional Registrar w.e.f. 19.10.2016 on continued deputation
2.	Shri Vinod Kulvi, Assistant Registrar (Non-Shorthand)	Deputy Registrar w.e.f. 05.11.2016
3.	Shri Syed Fazal Ahmed, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand)	Assistant Registrar (Non-Shorthand) w.e.f. 01.10.2016
4.	Ms. Raj Rani Negi, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand)	Assistant Registrar (Non-Shorthand) w.e.f. 05.11.2016
5.	Shri Vinod Kumar Kaushik, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand)	Assistant Registrar (Non-Shorthand) w.e.f. 05.11.2016
6.	Shri Kaustubh Nandan Pant, Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand)	Assistant Registrar (Non-Shorthand) w.e.f. 07.11.2016
7.	Ms. Parveen Kumari, Senior Court Assistant/Editor of Paper Book	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 01.10.2016
8.	Shri Mahesh Kumar, Senior Court Assistant/Editor of Paper Book	Branch Officer/Court Master (Non-Shorthand) w.e.f. 03.10.2016
9.	Ms. B. Parvathi, Senior Personal Assistant	Court Master (Shorthand) w.e.f. 08.11.2016 (AN)
10.	Shri Rakesh Bhatt, Senior Personal Assistant	Court Master (Shorthand) w.e.f. 08.11.2016 (AN)

M. V. RAMESH
Registrar (Admn.I)

New Delhi, the 15th December 2016

No. 44/V. Judges/2016/SCA(Genl.)—In pursuance of Rule 4 of Order II of the Supreme Court Rules, 2013, Hon'ble the Chief Justice of India has directed that the Supreme Court will be closed during the ensuing Christmas holidays from Monday, December 19, 2016 to Sunday, January 1, 2017 (both days inclusive) and will reopen on Monday, January 2, 2017.

Under Rule 6 of Order II of the Supreme Court Rules, 2013, Hon'ble the Chief Justice of India has constituted the following Division Benches for hearing of urgent miscellaneous matters during ensuing Christmas holidays on 23.12.2016 and 30.12.2016 respectively:

Division Bench	Period	Name of the Hon'ble Judges Constituting Division Bench	
1.	23.12.2016	Hon'ble Mr. Justice Ashok Bhushan And Hon'ble Mr. Justice L. Nageswara Rao	For hearing urgent miscellaneous matters.

Division Bench	Period	Name of the Hon'ble Judges Constituting Division Bench	
1.	30.12.2016	Hon'ble Mr. Justice R. K. Agrawal And Hon'ble Dr. Justice D. Y. Chandrachud	For hearing urgent miscellaneous matters.

RAJESH KUMAR GOEL
Registrar (J-III)

New Delhi, the 5th December 2016

No. F.20/2016/SCA(1)—Shri Indra Singh Rana, Branch Officer has retired from the service of the Registry of the Supreme Court of India with effect from the afternoon of November 30, 2016 on his attaining the age of superannuation.

BADR-UL-ISLAM
Additional Registrar (Admn.I)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
DIRECTORATE GENERAL, CRPF
New Delhi, the 5th December 2016

No. D.I.33/2015-Pers-DA-8—Consequent on his selection for deputation to NDMA as Joint Advisor (Communications & Information Technology) in PB-4 Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 8,700/- (pre-revised) on deputation basis for a period of three years from the date of joins the duty in NDMA vide NDMA letter No. 2/2/2010-Admn-JA (C&IT) dated 18.08.2016 and approval accorded by MHA vide their CF-3363622/2016 dated 01.09.2016, services of Shri Anurag Rana, Commandant (IRLA-4509) 4th Signal Bn CRPF is placed at the disposal of NDMA HQR. W.e.f. 17.10.2016 (AN).

ABHAY VIR CHAUHAN
Inspector General

DIRECTOR GENERAL
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE
New Delhi-03, the 13th October 2016

No. E-38013/01/Noti./GOs/2016/Pers-1/649—The President is pleased to appoint the following Inspectors (Steno/Min), on regular promotion to the rank of Assistant Commandant (JAO) in the pay scale of Rs. 15,600—39,100 (+) Grade Pay of Rs. 5,400/- in CISF with effect from the date noted against each :—

Sl. No.	Name of Officer (Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as AC (JAO) on regular basis
1.	SEES RAM	ASG NEW DELHI	24.08.2016/FN
2.	S. ANJANEYA RAJU	NISA HYDERABAD	08.09.2016/FN
3.	R. MURALIDARAN	CHPT CHENNAI	01.09.2016/FN
4.	K. NAGARAJAN	DAE KALPAKKAM	16.09.2016/FN
5.	MAHINDER SINGH YADAV	IOC PANIPAT	12.09.2016/FN
6.	C. VARADARAJAN	GP. HQ. COCHIN	13.09.2016/FN
7.	NOHAR SINGH ARMO	BSP BHILAI	06.09.2016/FN
8.	K. JAYA KUMARAN NAIR	GP. HQRs ALLAHABAD	07.10.2016/FN
9.	SANJAY KUMAR GUPTA	NS HQ NEW DELHI	02.09.2016/FN
10.	SHIV CHARAN SINGH	ASG NEW DELHI	16.09.2016/FN
11.	HARISH CHANDER MASIWAL	DAMEL DELHI	16.09.2016/FN
12.	SAMIR KUMAR DEY	GRSEL KOLKATA	02.09.2016/FN
13.	UMESH RAJAK	EZ HQ PATNA	08.09.2016/FN
14.	RANA SATYAWAN	GP. HQR MUMBAI	14.09.2016/FN
15.	R. SARAVANARAJ	SCCL SINGRENI	14.09.2016/FN
16.	ASHOK KUMAR MALLICK	IOCL PARADIP	30.09.2016/FN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 17th October 2016

No. E-38013/01/Noti./GOs/2016/Pers-1/665—The President is pleased to appoint the following Section Officer on regular promotion to the rank of Sr. Administrative Officer in the pay scale of Rs. 15,600—39,100/- (PB-3) + Grade Pay of Rs. 6,600/- (Pre-revised) in CISF with effect from the date noted against him :

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Sr. Administrative Officer on regular basis
1.	SH. PATRAS LAKRA	PROVISIONING BRANCH FHQR. NEW DELHI	01.10.2016/FN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No. E-38013/01/Noti./GOs/2016/Pers-1/667—The President is pleased to appoint the following Assistant on regular promotion to the rank of Section Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 (+) Grade Pay of Rs. 4,600/- (Pre-revised) in CISF with effect from the date noted against him :

Sl. No.	Name of Officer	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as Section Officer on regular basis
1.	SH. SATBIR SINGH	PERS BRANCH (Pers-II Section) FHQR. NEW DELHI	03.10.2016/FN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 28th November 2016

No. E-38013/01/Noti./GOs/2016/Pers-1/740—The President is pleased to appoint the following Inspectors (Steno/Min) on regular promotion to the rank of Assistant Commandants (JAO) in the pay Matrix Level-10 Rs. 56,100—1,77,500 in CISF with effect from the date noted against them :—

Sl. No.	Name of Officer (Shri)	Office/Unit where assumed the charge	Date of assumption of charge as AC (JAO) on regular basis
1.	RAJESH KUMAR	GP. HQR. PATNA	15.11.2016/FN
2.	MANGAL SINGH BHANDARI	BIOM KIRANDUL	17.10.2016/FN

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

The 6th December 2016

No.E-16015/NDMA/08/Pers.II/2016/2197—Consequent upon repatriation from deputation, the following officer has reported at CISF HQrs., New Delhi and taken on the strength of CISF HQrs/Unit with effect from the date as shown against his name:-

SL. No.	Name of the Officer (Shri/Smt/Ms)	Rank	Name of the Dept. where officer was on deputation.	Date of taken on the strength of CISF.	Date of assumption of charge/Unit
01	Vinay Kajla	Senior Commandant	NDMA New Delhi	11.11.16 (FN)	<u>05.12.16(FN)</u> CISF Unit BIOM Kirandul.

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No.E-16015/NITI/07/Pers.II/2016/2198—Consequent upon repatriation from deputation, the following officer has reported at CISF HQrs., New Delhi and taken on the strength of CISF HQrs/Unit with effect from the date as shown against his name:-

SL. No.	Name of the Officer (Shri/Smt/Ms)	Rank	Name of the Dept. where officer was on deputation.	Date of taken on the strength of CISF.	Date of assumption of charge/Unit
01	Tapasya Obhrai Nair	Commandant	NITI Aayog, New Delhi	17.10.16 (FN)	<u>15.11.16(FN)</u> <u>CISF Unit</u> <u>BDL Kanchanbagh</u>

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

No.E-16015/NIFT/38/Pers.II/2016/2199—Consequent upon repatriation from deputation, the following officer has reported at CISF HQrs., New Delhi and taken on the strength of CISF HQrs/Unit with effect from the date as shown against his name:-

SL. No.	Name of the Officer (Shri/Smt/Ms)	Rank	Name of the Dept. where officer was on deputation.	Date of taken on the strength of CISF.	Date of assumption of charge/Unit
01	Rajeev Pant	DIG	NIFT, Kannur(Kerala)	21.11.16 (FN)	<u>05.12.16(FN)</u> CISF WZ-II HQrs., Bhilai

Sd/- ILLEGIBLE
Director General/CISF

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

[OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), GUJARAT]

Ahmedabad-380009, the 7th December 2016

No. WM.1/47(3)/Vol. 1/O.W. No. 452—The Accountant General (A&E), Gujarat is pleased to promote following DAO-I official as Sr. Divisional Accounts Officer, Gr. 'B' (Gazetted) in revised pay scale as admissible under the CCS (Revised Pay) Rules-2016 in the level 10 (ten) of the Pay Matrix w.e.f. the dates shown against their names:—

Promoted as Sr DAO.

1. Shri M. S. Patel 01.05.2016
2. Shri S. N. Meena 01.06.2016

The Accountant General (A&E), Gujarat is pleased to promote following DAO-II official as DAO-I Gr. 'B' (Gazetted) in revised pay scale as admissible under the CCS (Revised Pay) Rules-2016 in the level 8 (eight) of the Pay Matrix w.e.f. the dates shown against their names :—

Promoted as D.A.O.-I.

1. Shri Vinayshankar 01.05.2016
2. Shri Hansraj Kansotia 01.06.2016

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (A&E)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL & SOCIAL SECTOR AUDIT), ODISHA

Bhubaneswar, the 5th December 2016

E.O. No. 49 [No. Admn(G&SSA)/17-2(AO)/Vol.IX/2364]—In pursuance of OOC No. 761 dated 31.10.2016 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-17-2/ (AO)/Vol.IX /2042 dated 31.10.2016 the following Asst. Audit

Officer on promotion has assumed the charge as Audit Officer (Civil) in Pre revised Pay Band – 2 (₹9300/- —₹34800/-) with corresponding Grade Pay of ₹5400/- with effect from the date as indicated against him.

Name of the Officers (S/Shri)	Date of taking over charge as Audit Officer
Nabin Chandra Pradhan	01.11.2016 FN

SNIGDHA MAHANTI
Sr. Audit Officer/ Admn.

MINISTRY OF MINES
(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 5th December 2016

No. A-19011/685/2016-Estt.A—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Phillip Hapadgara, to the post of Senior Mining Geologist in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 21.10.2016 (F/N).

SANJAY KUMAR SINGH
Administrative Officer
For Controller General

No. A-19012/332/2015-Estt.A—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, Shri A. Mishra, Administrative Officer, is promoted to the post of Senior Administrative Officer in Indian Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 22.08.2016 (A.N.).

SANJAY KUMAR SINGH
Administrative Officer
For Controller General

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(HEAVY WATER BOARD)

Mumbai - 400 094, the 8th December 2016

No. HWB/R/1(16)-Kota/2016/7165—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Shri Bhagwan Deen Chaudhary, Assistant Accountant (Level 7 in the Pay matrix) HWP, Kota to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Level 8 in the Pay matrix in Heavy Water Plant, Kota from the afternoon of 07th October, 2016 until further orders.

K. S. PILLAI
Administrative Officer-III

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
(O/O THE REGISTRAR OF COMPANIES)

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Jammu-180012, the 6th October 2016

No. u/s. 560(5)/FTE-2015-16 –Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of following Companies have this day been struck off the Register and the said Companies are dissolved:-

Sl. No.	CIN	Company Name
1	2	3
1.	U74999JK2015PTC004442	M/S LUCKY BROTHERS TRANSPORT PRIVATE LIMITED
2.	U70102JK2009PTC003075	M/S TEMPLE BUILDERS PRIVATE LIMITED

1	2	3
3.	U15122JK2014PTC004203	M/S JR DRY FRUIT CORNER PRIVATE LIMITED
4.	U74900JK2010PTC003184	M/S SFSK GRANITES PRIVATE LIMITED
5.	U63040JK2000PTC002092	M/S GOLDEN SUNSHINE TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
6.	U55101JK2008PTC002861	M/S CHARM WOOD HOTELS PRIVATE LIMITED
7.	U85190JK2000PTC002090	M/S SHIV AASTHA HEALTH CARE PRIVATE LIMITED
8.	U17114JK1985PTC000797	M/S J.K.SHODDY SPINNERS AND PROCESSORS PRIVATE LIMITED
9.	U31300JK2007PTC002730	M/S SHREE BALA JI CABLES PRIVATE LIMITED
10.	U26959JK2007PTC002733	M/S SHREE BALA JI MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
11.	U45209JK2007PTC002835	M/S SHRI MATA VAISHNO DEVI BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
12.	U45200JK2008PTC002893	M/S K.C.MULTIPLEX AND INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
13.	U45209JK2012PTC003598	M/S ISMAIEL BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
14.	U55100JK1992PTC001281	M/S BILAL HOTELS PRIVATE LIMITED
15.	U63040JK2014OPC004277	M/S REDISCOVER INDIA TOURS AND TRAVELS OPC PRIVATE LIMITED

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Limited Liability Partnership Act 2008 and of the following LLPs

Jammu-180012, the 6th October 2016

No.RoC/JMU/LLP-75/2015-16 – Notice is hereby given pursuant to under Section 75 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rules 37(3) of the LLP Rules, 2009 that the names of the following 3 LLP have on this day been struck off from the Register and the LLPs are dissolved:-

Sl.No.	LLPIN	Name of the LLP
1.	AAA-1979	M/s RSG Speciality Health Foods LLP
2.	AAB-0787	M/s Drishti Excellence Services LLP
3.	AAB-4893	M/s GMA Brokers And Claims Consultants LLP

O. P. SHARMA
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Mumbai – 400002, the 7th December 2016

ROC/560/FTE, 2011/1191—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of the following Companies has this day been struck off the Register of Companies from the date of this publication. These companies shall stand dissolved.

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
1	SIDDHACHAKRA DIGITAL SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U32100MH1991PTC063071	C46553335
2	ROYAL MARINE SERVICES PRIVATE LIMITED	U63032MH2008PTC181020	C40332892

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
3	TECHARK CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74140MH2007PTC173704	C50857739
4	IMMACULATE MANAGEMENT SOLUTIONS PVT. LTD	U74140MH2007PTC174240	C38321360
5	MAM HALL ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74999MH2015PTC263510	C61882494
6	ANASHIM CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2005PTC158143	C48318646
7	GOLDEN LINKS REALTORS AND DEVELOPERS PVT. LTD	U70109MH2010PTC208435	C61500344
8	CYGNET OVERSEAS PRIVATE LIMITED	U51900MH1993PTC075429	C46954384
9	ESSAR CEMENTS LIMITED	U26940MH2008PLC185664	C62207097
10	ENSOQUEST SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74990MH2008PTC188992	C50362151
11	FEW GOOD MEN EVENTS PRIVATE LIMITED	U93030MH2013PTC242760	C79049813
12	QUALIANCE APPAREL EXPORTS PRIVATE LIMITED	U18101MH1995PTC090176	C61790093
13	ATULYA DYESTUFF PVT LTD	U24114MH1993PTC071018	C66020017
14	HWAN COMMODITIES PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC249559	C45149614
15	VEGETABLE OIL MFG CO PRIVATE LIMITED	U15140MH1953PTC011541	C39273701
16	MEDIASHOP (INDIA) PRIVATE LIMITED	U92110MH1993PTC075515	C61557823
17	POTBELLY BREWHOUSE PRIVATE LIMITED	U15122MH2012PTC233584	C61124889
18	CENTRICA REALTY PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC174571	C46166989
19	MAHA SECURITISATION SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2003PTC141404	C57422081
20	INDSOFT SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC123703	C48240279
21	PARGAL CONSULTANTS PVT LTD	U74140MH1982PTC028642	C39167820
22	BRAINTREE WEBTECH (INDIA)PRIVATE LIMITED	U74999MH2002PTC135703	C61436234
23	ALUFINNS (INDIA) FABRICATORS PRIVATE LIMITED	U28111MH1988PTC049722	C50994367
24	SHRADDHA MANAGEMENT AND WAREHOUSING PVT. LTD	U74900MH1993PTC075673	C51138485
25	ABC FABRICON PRIVATE LIMITED	U45400MH2010PTC199017	C40637134
26	SUPRA BIOTECH (THANE) PRIVATE LIMITED	U24110MH1996PTC096876	C69968410
27	ESS PEE FABRICS PRIVATE LIMITED	U52100MH2011PTC217437	C39778139
28	AASTHA TRENDZ PRIVATE LIMITED	U52390MH2011PTC217436	C39777008
29	ARVID NILSSON INDIA PRIVATE LIMITED	U29268MH2009PTC190894	C38909826
30	TRIBUTE MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51109MH2009PTC193859	C69069490
31	VALUE TRADING PRIVATE LIMITED	U51109MH2009PTC193099	C69070142
32	PERSPECTIVE MERCANTILE PRIVATE LIMITED	U51109MH2009PTC193101	C69854289
33	INDAGE RICHTER NURSERIES PRIVATE LIMITED	U01122MH2006PTC162866	C01273689
34	INDRINKS RETAIL PRIVATE LIMITED	U51909MH2008PTC180892	C01274398
35	TULSI SAHITYA MEDIA PRIVATE LIMITED	U92141MH1997PTC110166	C27300367
36	TONGASEPATIL GRUHANIRMAN PRIVATE LIMITED	U74120MH2015PTC263883	C62136072
37	MONEY MACHINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U31501MH2013PTC250268	C18978700
38	MNCMART INDIA PRIVATE LIMITED	U52399MH2009PTC193653	C40371817
39	BOLLYWOOD FILMS LIMITED	U92132MH2001PLC133871	C45345642
40	SHIV ABHI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45201MH2010PTC199903	C70260153
41	TEERTH HOSPITALITY LIMITED	U55204MH2012PLC225924	C70231048
42	UNITED INFRA & DEVELOPER PRIVATE LIMITED	U70109MH2012PTC234839	C70262225
43	V.C. KUMARAN AND SONS INVESTMENTS PVT. LTD	U99999MH1979PTC021112	C50366046

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
44	CHASE LEASING LIMITED	U65920MH1989PLC054088	C65840118
45	CONTRACT BOTTLING COMPANY PRIVATE LIMITED	U15500MH1996PTC099835	C50366343
46	SHINE RESOURCES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51496MH2005PTC155137	C82329905
47	VELOX LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63000MH2009PTC191173	C40442873
48	4I TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51909MH2010PTC206423	C66415241
49	GEMINI LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED	U24239MH2010PTC209945	C49123003
50	VIRAL DIGITAL COLOUR LAB PRIVATE LIMITED	U74940MH2004PTC148070	C44035863
51	NARAYANA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45201MH2007PTC177159	C41438300
52	NARAYANA MULTI SPECIALITY HOSPITALS PVT LTD	U85110MH2011PTC220765	C41525312
53	VIBRER EXPORTS PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC249425	C50361567
54	RISHI GARDEN RESORTS PRIVATE LIMITED	U55102MH1997PTC110074	C46977013
55	FOUNTAIN HEAD II CLEANTECH INDIA PRIVATE LIMITED	U74990MH2010PTC200244	C41244401
56	INTEGRON ADVISORY SERVICES AND DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	U74999MH2002PTC134614	C62871942
57	CISS FILM & TELEVISION PRIVATE LIMITED	U74990MH2009PTC190647	C55144307
58	DEVAL SALES PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC217129	C48533830
59	SAGARDARSHAN SALES PRIVATE LIMITED	U51109MH2011PTC217005	C48534218
60	MANMEET SALES PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC216792	C48533988
61	MANN INFRA TRADE PRIVATE LIMITED	U45202MH2011PTC213699	C52836616
62	GRACE ARCADE PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH1995PTC089609	C58588674
63	TE-DEAM FINANCE AND INVESTMENT PRIVATE LIMITED	U65990MH1995PTC092308	C58584434
64	MUNAZZAF REALTORS PRIVATE LIMITED	U45202MH2007PTC176549	C41563222
65	PANINDIA CARGO PRIVATE LIMITED	U63090MH2003PTC141251	C41033077
66	DIA DIAMOND LINK PRIVATE LIMITED	U36910MH2007PTC173491	C47607007
67	CLASMET COSPACK PRIVATE LIMITED	U21029MH2008PTC182817	C46530234
68	ZEUSMED TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED.	U51909MH2007PTC167435	C46660239
69	METROPOLITAN HEART INSTITUTE AND RESEARCH CENTER (INDIA) LIMITED	U85195MH2000PLC126223	C53915674
70	NORTH OAK SECURE INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67100MH2005PTC152630	C32270290
71	BOMBAY COLLABORATIVEURBAN DESIGN AND CONSERVATION PRIVATE LIMITED	U74210MH1998PTC113743	C40951527
72	UMA CINE FILMS PRIVATE LIMITED	U92110MH1972PTC015761	C45944659
73	OVERSEAS IMPEX PRIVATE LIMITED	U29299MH1957PTC010972	C48181507
74	SAIKAA PHARMCEUTICALS PRIVATE LIMITED	U24230MH2003PTC139585	C56442627
75	EFFITECH TELESERVICS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U52510MH2004PTC144257	C50051457
76	QUICKBUILD CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45400MH2012PTC235669	C56210537
77	AVANTI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2012PTC229821	C38727756
78	SHAH REALTY & BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45203MH2013PTC250603	C61759809
79	DILYSMADOC INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2012PTC234549	C31209059
80	SECOND FLITE BROADBAND PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC253189	C39004577
81	ASIANEXT COMMODITIES EXCHANGE LIMITED	U51909MH2010PLC208986	C39145883
82	TAKTOMAT INDIA PRIVATE LIMITED	U51900MH2013PTC248588	C56489248
83	F S D TIMBERS PRIVATE LIMITED	U02001MH1979PTC021905	C55764286

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
84	SANKALP FOILS PRIVATE LIMITED	U27200MH2004PTC149403	C65910028
85	ADYA ESTATE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC167446	C56049588
86	PLANTSERV TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC205914	C82586090
87	AMIT SHARE TRADING PVT.LTD.	U99999MH1992PTC068189	C62611454
88	BODHANA ARTS FOUNDATION PRIVATE LIMITED	U51900MH2007PTC175700	C35013069
89	AMRITHA GRM COMPOSITES PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC201836	C56259427
90	THIRSTYFISH MARKETING PRIVATE LIMITED	U22130MH2009PTC197652	C80544380
91	SAMSUNG STEELS PRIVATE LIMITED	U27107MH1997PTC110574	C61978904
92	ASHTANG HOSPITAL & RESEARCH CENTRE PVT LTD	U85110MH2008PTC178788	C57418048
93	TRS EXPRESS LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U64120MH2011PTC211785	C40737751
94	FOC LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U64120MH2011PTC213889	C43090828
95	PNS IMPEX PRIVATE LIMITED	U52190MH2007PTC174174	C49714249
96	SILVERFLAG TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51909MH2004PTC148533	C61244299
97	EXIMIUS INTERACTIVE PRIVATE LIMITED	U72200MH2011PTC215520	C48206387
98	VIKRAM PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	U92110MH1995PTC094633	C63512388
99	A M R STEEL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U27100MH2010PTC203176	C46738746
100	NECO INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC129747	C54944657
101	RADIANT POLYGRAN PRIVATE LIMITED	U25199MH2012PTC226555	C62616651
102	STATURE HOMES & CREATIONS PRIVATE LIMITED	U45400MH2012PTC232606	C74670407
103	LEVEL LOGISTICS SOLUTION PRIVATE LIMITED	U60200MH2010PTC203432	C50813971
104	VINAYAK IMPEX PVT LTD	U15900MH1985PTC036715	C41489105
105	ORION ALTERNATIVE ASSETS PRIVATE LIMITED	U67190MH2008PTC187332	C55898126
106	ANUBHAVDARSHAN BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC163588	C40066714
107	JAGDAMBA BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45200MH2006PTC160354	C36313617
108	PANDURANG KRUPA AGRO PRIVATE LIMITED	U01403MH2011PTC224996	C62139845
109	NIRMAL LIFESTYLE (THANE) PRIVATE LIMITED	U85100MH2007PTC168970	C48519433
110	NIRMAL INFRASTRUCTURE (AHMEDABAD) PVT. LTD	U74999MH2007PTC167931	C45876463
111	NIRMAL SERVICE APARTMENTS PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC167959	C48501415
112	NIRMAL LIFESTYLE (VASAI) PRIVATE LIMITED	U74999MH2007PTC169678	C48520894
113	NIRMAL LIFESTYLE (PANVEL) PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC169422	C48521835
114	NIRMAL LIFESTYLE (NASHIK) PRIVATE LIMITED	U85100MH2007PTC169339	C45871449
115	NIRMAL INFRASTRUCTURE (GUJARAT) PRIVATE LIMITED	U45203MH2007PTC169421	C46662342
116	NIRMAL INFRASTRUCTURE (DOMBIVILI) PRIVATE LIMITED	U45203MH2007PTC169376	C48502769
117	EAST INDIA REALTIES PRIVATE LIMITED	U45202MH2009PTC196147	C48503353
118	NIRMAL E-LIFESTYLES PRIVATE LIMITED	U72900MH2010PTC205363	C48517072
119	DOMAIN CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45200MH2004PTC148253	C41541848
120	CARETAKER CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45200MH2004PTC149710	C41543067
121	BIZTRA TEKNOSOFT PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC233341	C43001825
122	LAURELTON DIAMONDS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74999MH2013FTC245558	C70733290
123	AVALON MARINE PRIVATE LIMITED	U63090MH2001PTC133390	C65799082
124	AVALON TECTRADING PRIVATE LIMITED	U51103MH2006PTC160562	C65799728

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
125	THELASARIA DEEP ENTERPRISE PRIVATE LIMITED	U51101MH2010PTC200208	C57479370
126	TWIN STAR POWER PRIVATE LIMITED	U40109MH2011PTC224833	C40057929
127	CSS PROCESS MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED	U67120MH1999PTC120887	C37677184
128	POPULUS MANPOWER SERVICES PRIVATE LIMITED	U74910MH2006PTC162935	C59336057
129	DANS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201MH2011PTC214678	C49845316
130	BB RETAIL PRIVATE LIMITED	U52100MH2012PTC225859	C44062776
131	CONATUS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U74999MH2012PTC234804	C45822905
132	GOLDEN ZEBEC INFLATABLES PRIVATE LIMITED	U35100MH2007PTC174798	C48244057
133	CWAY BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45202MH2009PTC197508	C55234959
134	LYNX DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70102MH2013PTC241211	C55707202
135	INGOLE'S PARIPURTI COACHING CLASSES PVT. LTD	U80903MH2010PTC201409	C46056636
136	SUN-BLEND CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U74900MH2010PTC199167	C50443621
137	OMERGA SCAN CENTRE PRIVATE LIMITED	U85100MH2007PTC170945	C60692324
138	AES MOTORS PRIVATE LIMITED	U34103MH2008PTC183191	C38045738
139	FIRST SOLAR CLEAN ENERGY PRIVATE LIMITED	U40106MH2010PTC207626	C46322384
140	GMP (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74999MH2002PTC137863	C40959199
141	ANDREE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U51900MH1976PTC018997	C43066422
142	CHAMPION POLYTECH PRIVATE LIMITED	U25199MH2006PTC164611	C62890371
143	ADVENT WELD TECH INSTITUTE PRIVATE LIMITED	U80900MH2011PTC212290	C37410768
144	SUN AND COW SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1999PTC121841	C27759315
145	CHERUB INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	U45200MH2008PTC185192	C41612573
146	THIRTYSEVEN DEGREES TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD	U72300MH2000PTC129682	C66250754
147	FOOTBALLONE SPORTS MANAGEMENT SERVICES COMPANY PRIVATE LIMITED	U92412MH2012PTC234429	C46598181
148	ALPHAVEDA LEARNING EDGE PRIVATE LIMITED	U80900MH2013PTC241223	C50306315
149	FLORA2000 GIFTING AND DESIGN PRIVATE LIMITED	U74120MH2010PTC203251	C51151348
150	PRAGYA TRADE FINANCING PRIVATE LIMITED	U65990MH2006PTC160653	C45110418
151	WATCHTOWER ENERGY PRIVATE LIMITED	U40101MH2010PTC204231	C51600369
152	T.H. AGENCIES PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC240339	C36844165
153	FONTIUS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2011PTC212535	C55285068
154	CELRON FASHIONS PRIVATE LIMITED	U17299MH2007PTC172188	C46980249
155	RAHUL DOSHI & SONS PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45202MH2009PTC189542	C38116406
156	KBC CAPITAL MANAGERS PRIVATE LIMITED	U74900MH2008PTC177866	C41259706
157	LAVI REAL ESTATE ADVISORS PRIVATE LIMITED	U70102MH2011PTC225122	C62486014
158	VINOD SYNTEX PRIVATE LIMITED	U99999MH1986PTC040348	C46468195
159	SUNSTAR PHARMA LIMITED	U65990MH1981PLC025526	C46124079
160	CHAVELI EXPORTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U99999MH2006PTC159431	C72274947
161	FRENCO INTERNATIONAL INDIA PRIVATE LIMITED	U74900MH2008PTC188641	C36265676
162	FILMMAKERS CINEMA PRIVATE LIMITED	U92120MH2008PTC185949	C55759344
163	KANAKIA ROTUNDA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45400MH2010PTC207817	C48378368
164	RED BERRY CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45203MH2010PTC201420	C48056618

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
165	CAMEL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45400MH2010PTC201359	C48056576
166	BEVERLY PARK CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45202MH2010PTC201390	C48055438
167	KHUSHVIN SECURITIES PRIVATE LIMITED	U74992MH2010PTC206778	C57524118
168	PUTCO REAL ESTATE PRIVATE LIMITED	U29220MH1993PTC070930	C38334421
169	SARIKA BUILDCON PRIVATE LIMITED	U70109MH2011PTC212120	C48321004
170	MARK METAL INDUSTRIES PVT LTD	U27200MH1987PTC043363	C38365631
171	WINCH ENERGY PROJECTS PRIVATE LIMITED	U74900MH2008PTC184696	C45281904
172	PENTAD HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55101MH2007PTC176015	C45280930
173	FALCON INTEGRATED FACILITY SERVICES PVT. LTD	U93030MH2011PTC216226	C48471296
174	JESWAL INFRATECH PRIVATE LIMITED	U45200MH2010PTC198755	C44122083
175	SUNRISE MEMBRANCE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U31200MH1988PTC049047	C78530664
176	TRINITY RADIANCE PRIVATE LIMITED	U18109MH2013PTC245869	C45124955
177	TRINITY AGRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U01403MH2013PTC245010	C45125770
178	WRITERS BUREAU INDIA PRIVATE LIMITED	U80211MH2009PTC190738	C41616764
179	SIDDHA AUSHADH PRIVATE LIMITED	U24233MH2007PTC174869	C37566957
180	SIDDHA INFOSOLUTION PRIVATE LIMITED	U72200MH2007PTC174868	C37577574
181	RADICAL SYSTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72100MH2000PTC125775	C56549850
182	ARISTOTLE SOFTWARE CONSULTING AND RESEARCH PRIVATE LIMITED	U72200MH2007PTC174586	C62402839
183	AMS INTERACTIVE MEDIA PRIVATE LIMITED	U72900MH2002PTC134935	C38036414
184	SHRI PERAMBADUR INDIAN LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U63000MH2008PTC188017	C46718540
185	ROYAL INFORMATION SYSTEMS PRIVATE LIMITED	U72200MH2009PTC197590	C45296167
186	AHURA INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45202MH2007PTC174003	C46294112
187	AMBIKA ICE FACTORY PRIVATE LIMITED	U15544MH1995PTC092373	C38793113
188	PALE BLUE DOT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2004PTC146135	C40315665
189	PORT CITY INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT (INDIA) LIMITED	U45202MH1996PLC217040	C58555293
190	BVA ENTERPRISES PRIVATE LIMITED	U52609MH2010PTC204110	C29209855
191	I B STEEL COMPANY PRIVATE LIMITED	U28910MH2010PTC211344	C50454453
192	PRATHAMESH EDU-INFRA PRIVATE LIMITED	U80101MH2008PTC179573	C54821285
193	TAPAS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2007PTC175440	C39597067
194	ADVANCED CLEANING TECHNICS (INDIA) PVT LTD	U24246MH1998PTC115096	C35444918
195	NICHE VENTURES PRIVATE LIMITED	U52390MH2009PTC197403	C55866669
196	HARIPACK SECURITISATION COMPANY OF INDIA PVT. LTD	U65999MH2009PTC189298	C29865458
197	ENTIZING MEDIA PRIVATE LIMITED	U72100MH2013PTC248237	C48522254
198	ONLINE CREATIVE CONTENT WRITING SERVICES PVT. LTD	U72900MH2004PTC150327	C48522734
199	OXYVIT HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U85100MH2007PTC173150	C40801144
200	MURBAD SYNTEX PVT LTD	U17120MH1983PTC029183	C39960950
201	TRITON CONTAINERS PVT LTD	U28120MH1992PTC068349	C41599168
202	FARMS TO KITCHEN PRIVATE LIMITED	U52100MH2013PTC239610	C55292411

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
203	EVERGREEN RESEARCH AND ASSETS MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U65990MH1991PTC063019	C55784854
204	TARA FIBERS PRIVATE LIMITED	U17100MH2002PTC137420	C61356408
205	HARIOM COTTON PRIVATE LIMITED	U17110MH2002PTC137393	C61357240
206	IREC EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80904MH2013PTC242484	C38117651
207	RIDA FOREX (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74990MH2004PTC149007	C37438413
208	GNR EQUIPMENTS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74999MH2003PTC142090	C41543141
209	KAPILESHWAR SUGARS PRIVATE LIMITED	U15500MH2013PTC243135	C60624871
210	DJR CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	U74140MH2008PTC186159	C60609153
211	RELIANCE AGRO TRADING & MARKETING PVT. LTD	U51101MH2008PTC181260	C62735105
212	BHATYE PROPERTIES & RESORTS PRIVATE LIMITED	U70200MH2013PTC244245	C62734108
213	FLYING PIG TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED	U51109MH2009PTC195921	C39385810
214	GAZI CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45400MH2013PTC239973	C57927774
215	UDBL GROUP PRIVATE LIMITED	U74999MH2014PTC251727	C48579536
216	BIRLA CARPETS AND GRASS PRIVATE LIMITED	U17226MH2006PTC165055	C04949343
217	ANIDEA MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U93000MH2010PTC202388	C45857901
218	SUMIT ROAD LINES PRIVATE LIMITED	U63090MH1999PTC123110	C39431218
219	AJAY ESTATE DEVELOPERS PVT LTD	U45200MH1982PTC027616	C61638144
220	SKIL KNOWLEDGE CITIES PRIVATE LIMITED	U80301MH2007PTC169540	C59341842
221	SKIL MARITIME & LOGISTICS VENTURES LIMITED	U63000MH2009PLC189629	C39364112
222	JYOSHAN GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC188628	C81638439
223	VDIL SEEPZ INDIA PRIVATE LIMITED	U36912MH2013PTC240509	C47376140
224	SAI LAXMI ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U29268MH2010PTC210681	C70036363
225	CALICO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U24230MH2003PTC142820	C37306289
226	LIVWEL INFOWAY PRIVATE LIMITED	U72200MH2000PTC129496	C47622360
227	HEALTHWISE MEDICAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U85100MH2008PTC188827	C45122173
228	ANCHOR ORGANIC PRIVATE LIMITED	U24100MH2010PTC200360	C45359692
229	RAVIOZONE HYDRO ENERGIES PRIVATE LIMITED	U40101MH2008PTC185294	C60999083
230	AALAY NEST PRIVATE LIMITED	U45200MH2005PTC152610	C44564516
231	KANCHAN HERBALS PRIVATE LIMITED	U24230MH2004PTC143877	C29624889
232	ANUSHREE SYNTHETICS PVT LTD	U17110MH1987PTC044598	C61534590
233	ABYAZ TEXTILE PRIVATE LIMITED	U18109MH2014PTC251992	C56420573
234	TROMBAY NAVNIRMAN PRIVATE LIMITED	U45200MH2011PTC225084	C37889904
235	CLIPHAMED CONSULTANTS PVT LTD	U74999MH1994PTC077121	C42601245
236	SHRI SADGURU TRAVELS PRIVATE LIMITED	U60210MH2001PTC133779	C38019402
237	PMI GREEN GOLD ANIMATION PRIVATE LIMITED	U92110MH2005PTC156813	C40095689
238	VAILANKANNI SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200MH2008PTC184456	C37887379
239	CRYSTAL INFRA PRIVATE LIMITED	U45200MH2007PTC169630	C71626733
240	SEPCO TRADING PRIVATE LIMITED	U51109MH2008PTC187963	C40227696
241	LOGICASH SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC243136	C43897479
242	TRANSTREASURE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74900MH2013PTC242497	C43898055
243	ARAZOFT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72900MH2013PTC241963	C62543780

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
244	ORSON DRUGS AND SURGICALS PRIVATE LIMITED	U24230MH1997PTC108772	C41593096
245	KHERAJ TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED	U63040MH2001PTC131742	C55043137
246	PARAJIKA MULTITRADING PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC213389	C34719591
247	GITANJALI IMPEX PRIVATE LIMITED	U36912MH1995PTC093747	C56391147
248	C. M. SHAH AND COMPANY PRIVATE LIMITED	U74140MH1971PTC015107	C42760926
249	SITAR INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U15492MH2008PTC177680	C60689148
250	SUNSULATE INSULATION PRIVATE LIMITED	U51432MH2007PTC172973	C46461653
251	LEAP ENTERPRISE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC218887	C42610063
252	CHAMARIA PRINT AND PACK PRIVATE LIMITED	U21010MH1997PTC107463	C38120283
253	DYNAPAC ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U28920MH2001PTC132155	C36015923
254	ZUBIN ENTERPRISES LIMITED	U51900MH1997PLC107265	C40910135
255	SHREE TOWNSHIP PRIVATE LIMITED	U45201MH2001PTC132061	C40650921
256	AEON MANAGERS PRIVATE LIMITED	U74120MH2013PTC243485	C61211322
257	FRONTLINE FOOD PROCESSORS PRIVATE LIMITED	U15100MH1993PTC074016	C49853690
258	KOPARGAON PLASTOFLEX PVT LTD	U25209MH1991PTC062770	C49842404
259	BAHUBALI POLYMERS AND POLYESTERS PVT. LTD	U25200MH1997PTC105642	C49792963
260	SYMBOL SYSTEMS OF INDIA PRIVATE LIMITED	U72900MH1997PTC109917	C61348801
261	NEWAGE INDUSTRIES FIRE PROTECTION ENGINEERS PRIVATE LIMITED	U29253MH2010PTC208807	C46219457
262	HIND HAZIRA TERMINALS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC227466	C40500357
263	SHARAF SESE AUTO LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U74999MH2009PTC193080	C69473064
264	OPTUSION SFX STUDIOS PRIVATE LIMITED	U92120MH2008PTC183546	C37621810
265	FLEXICAN TRADING PRIVATE LIMITED	U51900MH1995PTC084821	C33111949
266	RISHABH PULSES PRIVATE LIMITED	U01111MH2001PTC133283	C46220992
267	EDGE APPLIANCES PRIVATE LIMITED	U32204MH2010PTC204900	C40370454
268	QRISNANI YARDS PRIVATE LIMITED	U63000MH2008PTC188411	C71771232
269	MEDITRINA FARMS PRIVATE LIMITED	U01403MH2008PTC182763	C46176574
270	CERES FARMS PRIVATE LIMITED	U01407MH2008PTC183296	C46175279
271	CONSUS BUILDERS & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC212485	C44549384
272	N A CLASSICAL AUDIO CASSETES PRIVATE LIMITED	U32303MH1995PTC094155	C43125848
273	IBD JIC BUILDERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70100MH2012PTC235798	C56725401
274	IISHAANAH DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U70109MH2013PTC240954	C61330148
275	AMAZON HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED	U85100MH2008PTC184321	C55771828
276	LOWELL LAMBDA MURHO OILNERGY PRIVATE LIMITED	U11200MH2004PTC147989	C42703561
277	MAVERICK REALTORS PRIVATE LIMITED	U70100MH1995PTC091855	C55183446
278	SUMANGAL ART & PRESS PRIVATE LIMITED	U22219MH2013PTC240706	C38926168
279	ONE INCH ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92140MH2006PTC158574	C41372764
280	BLUESWAN SYNDICATE MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED	U92412MH2012PTC231166	C57313066
281	PRERANA PROTEIN THERAPEUTICS PRIVATE LIMITED	U24232MH2010PTC208902	C37332574
282	TWINKLE AROCOSMETICS PRIVATE LIMITED	U24246MH1991PTC064144	C43139955
283	BLUE ART PROCESSORS PRIVATE LIMITED	U99999MH1997PTC107276	C43122902
284	ALPSVALLEY REALTORS PRIVATE LIMITED	U70101MH2009PTC190301	C46143491

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
285	PBL MULTISERVICES PRIVATE LIMITED	U67190MH2011PTC215907	C33471384
286	USAMN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45201MH2006PTC165994	C36346922
287	EDUBYTE INNOVATORS PRIVATE LIMITED	U80904MH2012PTC228998	C32905853
288	M & S LOGISTICS PRIVATE LIMITED	U51311MH1992PTC065470	C37295953
289	GREAT VASHISHTHI ENGINEERING & SHIPBUILDING PRIVATE LIMITED	U74210MH2010PTC203817	C49876816
290	PNP PACKAGING PRIVATE LIMITED	U21014MH2006PTC160829	C46694048
291	GAJAVADAN BUILDERS AND DEVELOPERS PVT. LTD	U70102MH2011PTC216822	C46701603
292	SUYASH IT SERVICES PRIVATE LIMITED	U72200MH2004PTC149043	C56773203
293	AUSIND WATER MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U41000MH2010PTC211441	C56507502
294	EFFERVESCENT EDUCARE PRIVATE LIMITED	U80902MH2013PTC239753	C41177759
295	SHABALI FOODS PVT LTD	U15100MH1992PTC069100	C38838348
296	OLENEK INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U67120MH1995PTC084931	C55773469
297	SHREYAS ADVISORY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2002PTC137141	C38853503
298	SUPRATHET HOSPITAL AND SURGICAL RESEARCH INSTITUTE LIMITED	U85100MH1999PLC120671	C58057837
299	ASK NUTRA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U15139MH2013PTC249252	C55195820
300	LOVING EARTH ORGANIC PRIVATE LIMITED	U15122MH2012PTC230905	C47855143
301	LAMPLIGHT COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC239049	C56329329
302	ROCKINGSTAGE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U92412MH2012PTC235088	C56330400
303	POONAM TRAVELS PRIVATE LIMITED	U63040MH1983PTC029607	C45652146
304	HAMMER CONSULTING PRIVATE LIMITED	U93090MH2008PTC180901	C47918180
305	EXTREME TECHCHEM PRIVATE LIMITED	U29268MH2009PTC189617	C41365123
306	AGROFOYER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72200MH2004PTC149356	C60611407
307	HERBZ INDIA PRIVATE LIMITED	U65993MH1999PTC119510	C39956594
308	RAIPUR LOTTERY BHANDAR PRIVATE LIMITED	U92490MH2005PTC151405	C56507510
309	STAARSHIP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2000PTC125049	C48438121
310	N KUMAR HOTELS (I) PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC221376	C52079936
311	SEAWARD WEST BOATS PRIVATE LIMITED	U61100MH1972PTC016027	C28450039
312	SEABOR PROFESSIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC222080	C48568455
313	VARIETY AGRO PRIVATE LIMITED	U01210MH2013PTC251028	C51874782
314	PURPLE AGRO PRIVATE LIMITED	U01403MH2013PTC250964	C51875821
315	MELLON AGRO PRIVATE LIMITED	U01403MH2013PTC250817	C51876324
316	STAR CHAPMANS ENGINEERING PRIVATE LIMITED	U36900MH2007PTC170762	C32929424
317	COOL AMIGO CONSUMER CARE PRIVATE LIMITED	U93030MH2012PTC230513	C50278670
318	IEC EXPRESS PRIVATE LIMITED	U93000MH2008PTC179759	C41420118
319	CENTRE FOR TECHNOLOGY RESEARCH AND INNOVATION PRIVATE LIMITED	U73100MH2012PTC227852	C52396025
320	JKL REALTY PRIVATE LIMITED	U70102MH2010PTC201603	C39179577
321	SAMARTH SHAH TRADERS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U51909MH2002PTC136094	C57100315
322	MINT CONNECTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U15140MH1998PTC116311	C43090018
323	AMALTAS DESIGNZ PRIVATE LIMITED	U18101MH2010PTC211493	C56187198
324	INNSBRUCK PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U70100MH2010PTC201402	C51482917

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
325	ITANKAR AGRO FARM PRIVATE LIMITED	U01407MH2010PTC201703	C45093358
326	DHANASHRIMATA AGRO FARM PRIVATE LIMITED	U01400MH2010PTC201731	C45090008
327	TOPACK FIELD SERVICES P LTD	U28910MH1989PTC052857	C41587908
328	DHAN INFRAWELL PRIVATE LIMITED	U74120MH2014PTC259096	C43142603
329	BIDYUT ART PRINTERS (INDIA) PRIVATE LIMITED	U22219MH2003PTC143020	C55896005
330	M. Z. INFRABUILT PRIVATE LIMITED	U74900MH2014PTC256368	C48040208
331	TAHA BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45202MH2008PTC179248	C62371919
332	MEHER DHATU RASAYAN PRIVATE LIMITED	U28110MH2007PTC173346	C48524300
333	PROART PROMOTIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH1995PTC087083	C31640550
334	CHAITYADEEP INVESTMENTS PVT LTD	U67120MH1985PTC037201	C31659428
335	SOLSON AGRO PRIVATE LIMITED	U01403MH2010PTC209152	C61125399
336	ASK CREDENCE PRIVATE LIMITED	U93000MH2011PTC221343	C69359180
337	COMENSOL ENGINEERING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2009PTC191322	C61816930
338	7TH STAGE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999MH2011PTC217434	C61637419
339	VOLGUS ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74900MH2011PTC217292	C61636817
340	PAGAN HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U55101MH2012PTC229476	C71893341
341	LAKEWAY LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC212125	C72157811
342	VICEROY GEMS & JEWELLERY PRIVATE LIMITED	U27205MH2011PTC212269	C72210867
343	OPES TRADE COMPANY PRIVATE LIMITED	U74999MH2008PTC180153	C40124539
344	PARAMOUNT DENTAL LAB PRIVATE LIMITED	U85120MH2006PTC165931	C43160795
345	S 2 S MARITIME PRIVATE LIMITED	U63012MH2006PTC164253	C54622600
346	NARSINGH PICTURES PRIVATE LIMITED	U92100MH2010PTC204318	C40167173
347	MAKESURE MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999MH2013PTC239546	C46103834
348	ALGOL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140MH2008PTC186468	C50442722
349	AVANEESH DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED	U51909MH2010PTC203752	C40534448
350	KANZ REMEDIES PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC229309	C55764930
351	ACROPOLIS FINE CHEMICALS PVT.LTD.	U24110MH1993PTC073932	C58605908
352	PH MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED	U22222MH2010PTC208457	C44634491
353	DISCOUNT BABA FASHION RETAIL PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC230833	C37913126
354	INDIAN BULLION & COMMODITY EXCHANGE PVT. LTD	U74900MH2009PTC190736	C29662970
355	L.T.S.TEXTILE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U17120MH2014PTC253481	C66277013
356	CREATIVE CHOICE TECH PARK (INDIA) PRIVATE LIMITED	U45201MH2008PTC184572	C43920222
357	INSIDE TECH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300MH2013PTC243434	C31852668
358	SUPER KNIT-WEAR COMPANY PRIVATE LIMITED	U18101MH1953PTC009065	C74506726
359	GREEN THUMB MOVIES PRIVATE LIMITED	U92120MH2010PTC206723	C29465044
360	PARIDHI WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC212029	C66303272
361	BNJ STAYER PRIVATE LIMITED	U74140MH2014PTC253013	C62726617
362	MORNING ENERGY FOOD SERVICES PRIVATE LIMITED	U93000MH2011PTC212650	C39265186
363	BETHEL STAINLESS STEEL WORKS PRIVATE LIMITED	U28931MH2014PTC254724	C61639928
364	VT ENTERTAINMENT PARKS PRIVATE LIMITED	U45208MH2008PTC185739	C56044324
365	SMIT TEXTILE MACHINERY MANUFACTURERS PVT. LTD	U29253MH2012PTC227674	C56383631
366	SYNAPSE OVERSEAS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC238568	C42355529

Sr. No.	Company Name	CIN No	SRN
367	KMD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC179331	C40142861
368	CTL TELECOM PRIVATE LIMITED	U30000MH2005PTC154347	C43993476
369	MOHA IMPEX ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	U51909MH2005PTC152150	C37852571
370	SIVA WEBTECH PRIVATE LIMITED	U72900MH2008PTC178978	C40081390
371	UJWAL NETWORKING AND CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2010PTC203850	C45334125
372	GWMCPL-VC WASTE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	U90001MH2012PTC233596	C59286138
373	GULF-OMKAR PETROVISION AND REFINERIES PVT LTD	U23209MH2000PTC130127	C44491728
374	SURYATEJ PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED	U74999MH2009PTC192587	C48490544
375	CONTINENTAL BUSINESS RESEARCH AND SERVICES PRIVATE LIMITED	U74130MH1998PTC113328	C40015877
376	IMMUNO VISION PRIVATE LIMITED	U85199MH2001PTC132868	C46594016
377	DEFINITE BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45400MH2011PTC223079	C62182324
378	VEDANAND EXPORTS PRIVATE LIMITED	U74990MH2012PTC226394	C62183199
379	PRATAP HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U55101MH2007PTC174679	C40363145
380	HUGE EDGE MEDIA & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC231673	C65920647
381	LAWSON HOLIDAYS PRIVATE LIMITED	U55100MH2011PTC215673	C54674957
382	ONTARIO TRADING PRIVATE LIMITED	U51909MH2008PTC188181	C71184493
383	PRATISHTHA SECURITIES PRIVATE LIMITED	U67120MH1991PTC063833	C55256416
384	D2S IMAGING INDIA PRIVATE LIMITED	U72200MH2005PTC151162	C56075047
385	GROWCEN AGRO PRIVATE LIMITED	U01403MH2008PTC181103	C59337279
386	HANA NETWORK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74120MH2012PTC227315	C62644679
387	HELENA EXPORTS LIMITED	U51900MH1994PLC080117	C61333761
388	HELENA TRAVELS AND EXCHANGE PRIVATE LIMITED	U63040MH2001PTC130811	C61334231
389	MRS TRUSTEE SERVICES PRIVATE LIMITED	U65999MH2006PTC165885	C62819859
390	BROADWAY RUBBER PRIVATE LIMITED	U25203MH2011PTC220532	C56060874
391	AURUS REALTY PRIVATE LIMITED	U70102MH2012PTC238443	C60591765
392	MACORD TRADING PRIVATE LIMITED	U51900MH1996PTC100577	C74930462
393	PARIS AIR PILOT TRAINING PRIVATE LIMITED	U62200MH2011PTC223192	C61625406
394	BACKBENCHER FILMS PRIVATE LIMITED	U92490MH2011PTC225014	C64941693
395	BGG INFORMATION PRIVATE LIMITED	U74990MH2008FTC189145	C66488453
396	TAURUS RESOURCES PRIVATE LIMITED	U74120MH2011PTC221259	C48864342
397	CLOUDRE.IN REAL ESTATE TECHNOLOGY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74140MH2009FTC198187	C55053169
398	UNO CROP SCIENCE PRIVATE LIMITED	U01403MH2009PTC196462	C30162101

S. P. KUMAR
Registrar of Companies
Maharashtra

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2016
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in